



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2007/माघ 24, 1928

No. 151]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2007/MAGHA 24, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2007

का.आ. 186(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1180(अ), तारीख 26 जुलाई, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 55.758 कि.मी. से 56.966 कि.मी. और 58.392 कि.मी. से 77.610 कि.मी. (इन्दौर-खलघाट सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन के बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 18 अगस्त, 2006 को "नई दुनिया" और तारीख 20 अगस्त, 2006 तथा 21 अगस्त, 2006 को "चौथा संसार" में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 55.758 कि.मी. से 58.988 कि.मी. और 58.392 कि.मी. से 77.610 कि.मी. (इन्दीर-खलघाट सेक्शन) तक के भूखण्ड के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का नाम	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूस्वामी/ अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	धार	धरमपुरी	(1) चिकतियाबाद	228	निजी	सिंचित	0.060	अमरसिंह, हीरा वगैरा, गप्पु मुलान सिंह पिता दित्या
				210 224/1	निजी	पड़त	0.060	रोमन कैथोलीक कास्ट समप्रदाय (धानी)
				224/2/2	निजी	सिंचित	0.070	मांगीलाल, रत्न पिता हेमा
				226	शासकिय	आबादी	0.070	म.प्र. शासन शासकीय उचित मूल्य कि दुकान
				223	निजी	पड़त	0.020	किशनलाल, नानुराम पिता देवाजी, पुनलराम मैनाराम रनछोड़ पुनीबाई पिता देवाजी, कनीराम गोपाल पिता पुना वगैरा
				221	शासकिय	आबादी	0.080	म.प्र. शासन(आबादी) छोटु सिंह पिता मांगीलाल, हीरालाल पिता खेमाजी, अर्जुन पिता नारायण, चुन्नीलाल पिता गमनाजी, अम्बाराम पिता पुनमचन्द, पुनमचन्द पिता मुलचन्द, ग्राम पंचायत भवन पुराना, अम्बाराम रामेश्वर पिता आशाराम, दिनेश पिता गोरधन, तीजाबाई पति नानुराम,
				217/1	निजी	पड़त	0.011	बलराम, विमला, मुन्नी बसन्ती, शंकरलाल, रामचन्द केसरबाई मूलीबाई बेवा पेमा वगैरा
				217/2	निजी	पड़त	0.004	भुपेन्द्र पिता लक्ष्मण सिंह
				216	शासकिय	पड़त	0.060	स्वास्थ्य केन्द्र भवन म.प्र. शासन(आबादी) नानुराम पिता मंगत्या, हरिशचन्द्र बुन्देला, पुनीबाई बेवा हिरालाल, सोहन पिता बाबु, देवीसिंह पिता भैराजी, अमबाराम देवीसिंह
				451/1	शासकिय	पड़त	0.021	म.प्र. शासन ना.का. च.
				451/2	निजी	पड़त	0.010	नत्थू पिता शिवाजी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				451/3	शासकिय	चरनोई	0.020	म.प्र. शासन ना.का. च.
				449	निजी	परिवर्तित भूमि	0.190	ओमप्रकाश पिता सत्यनारायण, मेसर्स बिदासरिया मिल्स प्रा. लि. इन्दौर
				450	निजी	पड़त	0.040	ओमप्रकाश पिता सत्यनारायण, मेसर्स बिदासरिया मिल्स प्रा. लि. इन्दौर
				398	शासकिय	पड़त	0.460	नराण पिता गणपत, चन्द्रशेखर चम्पालाल, तिलोक — बुदा
				399/1	निजी	पड़त	0.506	पवनकुमार पिता बाबुलाल
				399/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.140	पवन कुमार, प्रद्युमन पिता मोहन
				396/4	निजी	सिंचित	0.078	नत्थू पिता मोती
				396/3	निजी	परिवर्तित भूमि	0.160	पवन कुमार, प्रद्युमन पिता मोहन
				394	निजी	परिवर्तित भूमि	0.090	सदीपकुमार पिता किंसोरीलाल
				395/1	निजी	सिंचित	0.050	नत्थू पिता मोती
				395/3	निजी	सिंचित	0.110	नत्थू पिता मोती
				275	शासकिय	पड़त	0.040	म.प्र. शासन (रास्ता)
				272/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.008	ओमप्रकाश सिंह मनोलसिंह पिता रामदेव सिंह बगैरा
				271	निजी	परिवर्तित भूमि	0.160	पुरुषात्तम जमनाप्रसाद पिता तेजकरण राई, अध्यक्ष सातल उलन्स फैक्ट्री प्रा. लि. बगैरा
				202/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.060	राजीव पिता रामगोपाल बिदासरिया
				202/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.040	पुरुषात्तम जमनादास हुकुमचन्द पिता तेजकरण राई सातल उलन्स फैक्ट्री प्रा. लि.
				513	शासकिय	पड़त	0.250	म.प्र. शासन (निरतार चरनोई)
				514/3/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.025	रामगोपाल पिता सत्यनारायण बिदासरिया
				514/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.025	आर. एस. एल. लि. यूनिट नं 2 डायरेक्टर राहुल पिता रामगोपाल बिदासरिया
				442/2	निजी	पड़त	0.050	मोतीलाल पिता जगन्नाथ
				512	निजी	परिवर्तित भूमि	0.330	महावीर पिता सत्यनारायण बिदासरिया
				479	निजी	परिवर्तित भूमि	0.180	महावीर पिता सत्यनारायण बिदासरिया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				442/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.190	एस. डी. सी. इन्डस्ट्रीस प्रा. लि. धानी राहुल पिता रामगोपाल बिदासरिया
				445/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.125	पूर्वी लक्ष्मी लि. धानी डायरेक्टर राहुल पिता रामगोपाल बिदासरिया
				445/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.125	जसवन्त सिंह पिता रतन सिंह
				441/1/1/1	निजी	असिंचित	0.030	मांगीलाल पिता रत्ना
				441/1/1/2	निजी	पड़त	0.010	दयाराम पिता मांगीलाल
				441/3	निजी	पड़त	0.010	दयाराम पिता मांगीलाल
				441/1/2	निजी	पड़त	0.011	गोविंदकुमार पिता उमानाथ
				441/1/3	निजी	पड़त	0.004	राजकुमार पिता सहदेव
				480	शासकिय	नाला	0.030	म.प्र. शासन (नाला)
				441/2/1	निजी	पड़त	0.030	कल्याण पिता नानूराम तीजाबाई वगैरा
				441/2/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.011	श्रीकृष्ण पिता धन्नालाल
				441/2/3	निजी	पड़त	0.012	कल्याण पिता नानूराम तीजाबाई वगैरा
				441/2/4	निजी	परिवर्तित भूमि	0.022	ओमप्रकाश पिता गोविन्दराव
				441/2/10	निजी	पड़त	0.007	मनोरमाबाई पति रविन्द्रसिंह
				441/2/5	निजी	पड़त	0.011	छोटुसिंह पिता मांगीलाल
				441/2/6	निजी	पड़त	0.011	शिवबहादुरसिंह पिता रूस्तमसिंह
				441/2/7	निजी	पड़त	0.011	कल्याण पिता नानूराम तीजाबाई वगैरा
				441/2/8	निजी	पड़त	0.011	प्रदीप पिता दयाराम
				441/2/9	निजी	पड़त	0.003	प्रदीप पिता दयाराम
				441/4	निजी	परिवर्तित भूमि	0.010	कन्हैलाल पिता जयमल
				441/5	निजी	परिवर्तित भूमि	0.010	शान्तादेवी पिता घनश्यामदास
				441/6	निजी	परिवर्तित भूमि	0.013	मांगीलाल पिता रत्ना
				441/7	निजी	परिवर्तित भूमि	0.012	चन्द्रशेखर, राकेश पिता चंपालाल
				232/1/1	निजी	पड़त	0.156	रुकमाबाई, बैवा बाबुदास, चंपालाल
				232/1/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.007	राजेन्द्र कुमार पिता चंपालाल
				232/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.011	राधेश्याम पि कृपाराम
				232/3	निजी	पड़त	0.013	नेनरु अन्तमा पिता सूबारेडी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				232/4	निजी	परिवर्तित भूमि	0.012	शांता बाई उर्फ शारदाबाई पति रामनारायण
				233	निजी	पड़त	0.013	भैरुसिंह, किशन पिता चुन्नीलाल
				234	निजी	परिवर्तित भूमि	0.025	पुना पिता पुरा
				235	निजी	पड़त	0.038	पीरखों सरदारखों पिता हसनखों वगैरा
				236/1	निजी	पड़त	0.009	प्रेमलाल पिता रघुनाथप्रसाद
				236/2	निजी	पड़त	0.004	रमेशचन्द्र पिता सेवाराम
				238	शासकिय	आबादी	0.085	म.प्र. शासन (आबादी) ग्राम सेवक निवास, कैलाश पिता नन्दू
				258/2/1/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.006	राजेश पिता पुरुषोत्तम
				258/2/1/2	निजी	पड़त	0.010	हरिराम पिता किशनलाल वगैरा
				258/2/1/3	निजी	परिवर्तित भूमि	0.003	प्रेमचन्द पिता गोविंदराव
				258/2/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.010	योगेन्द्रसिंह पिता गोरधनसिंह
				259/2/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.023	लक्ष्मीबाई पति किशनलाल
				259/2/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.013	लक्ष्मीबाई पति किशनलाल
				259/2/3	निजी	सिंचित	0.204	संतोष कुमार पिता किशनलाल
				259/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.250	गेदमलाल पिता किशनलाल
				261	निजी	पड़त	0.100	लक्ष्मीबाई पति किशनलाल
				262/1	निजी	सिंचित	0.470	जगदीश पिता किशनलाल
				472	शासकिय	नाला	0.009	म.प्र. शासन (नाला)
				264	शासकिय	पड़त	0.550	म.प्र. शासन (नि.च.), शांतासिंह बुटासिंह
				265/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.090	केदारमल पिता गोपी किशन सुनिता पति महेशचंद
				265/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.140	केदारमल, राधेश्याम पिता गोपी किशन
				265/3	निजी	परिवर्तित भूमि	0.140	सुनिता पति महेशचंद
				266/2	शासकिय	आबादी	0.330	म.प्र. शासन (आबादी) गुरुद्वारा 1 पक्का मुन्ना पिता दशरथ 1 तोतागम पिता गुडिया मकान 1 पक्का यात्री प्रतीक्षालय शासकीय

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				267	शासकिय	पड़त	0.050	म.प्र. शासन (ना.का. चर)
				203/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.040	पवनकुमार पिता मदनलाल
				203/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.010	रिलायस इन्डस्ट्रीज
				204/1/2/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.020	रिलायस इन्डस्ट्रीज
				204/1/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.039	रिलायस इन्डस्ट्रीज
				204/1/2/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.040	पर्वतसिंह पिता हट्टेसिंह
				204/1/3	निजी	सिंचित	0.040	काली पति जोसिंह वगैरा
				206/1	निजी	सिंचित	0.025	गिरधारीलाल पिता रामचंद
				206/2	निजी	सिंचित	0.025	किशनलाल पिता बंदीनारायण
				205	निजी	सिंचित	0.070	ओमप्रकाश पिता रामदेवसिंह
				460	शासकिय	पड़त	0.028	म.प्र. शासन (नाला)
				474	निजी	परिवर्तित भूमि	0.130	रामगोपाल पिता सत्यनारायण
				475	निजी	परिवर्तित भूमि	0.034	रामगोपाल पिता सत्यनारायण
				403	निजी	पड़त	0.243	नत्थु पिता मोती
				404	निजी	असिंचित	0.250	खडकसिंह महेन्द्रपाल सिंह पिता अंतरसिंह वगैरा
				405/1	निजी	सिंचित	0.404	नवनीत पिता गोपालदास, गिरिराज पिता कृष्णलाल वगैरा
				405/3	निजी	सिंचित	0.060	नवनीत पिता गोपालदास, गिरिराज पिता कृष्णलाल वगैरा
				405/2	शासकिय नहर	पड़त	0.050	म.प्र. शासन (नहर)
						योग	8.466	
			(2) धारिया	12/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.050	कुसुमबाई बेवा मनोहरलाल, संजय पिता मनोहरलाल, जाति-जायसवाल, नि-डेहरिया
				13	निजी	सिंचित	0.640	नत्थु, कन्हैया पिता सुखराम वगैरा जाति-भिल, नि-डेहरिया
				14	निजी	सिंचित	0.650	दरियाव पिता मुल्या, जाति-भिल, नि-डेहरिया

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				15/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.100	महेशचन्द्र पिता बाबुलाल, वगैरा, जाति—जायसवाल, नि—डेहरिया
				16/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.640	कन्हैलाल पिता शोभराम, वगैरा, जाति—जायसवाल, नि—डेहरिया
				22	शासकिय	पड़त	0.920	म.प्र. शासन (कारम नदी)
						योग	3.000	
			(3.) दुधी	237/27/1	निजी	पड़त	0.020	शोभाराम पिता गणपत जाति—भील नि. ग्रा. भूमिस्वामी
				237/27/2	निजी	पड़त	0.030	संजय पिता रमेश जाती भिलाला निवासी धानी
				27/1	निजी	सिंचित	0.026	अरुणाबाई पति हेमन्तकुमार शारदाबाई पति विजयकुमार जाति— महाजन नि. धरमपुरी भूमिस्वामी
				29/2/1/1	निजी	सिंचित	0.050	प्रणयकुमार पिता कैलाशचन्द्र जाति—अग्रवाल, नि. कंचनबाग इन्दौर भूमिस्वामी
				29/2/1/2	निजी	सिंचित	0.070	मागीलाल पिता बाबू जाति—भरुड़ नि. गुलझारा भूमिस्वामी
				29/2/2/2	निजी	परिवर्तित	0.310	सुभषचन्द्र, जगदीशचन्द्र पिता गिरधारीलाल, जाति—अग्रवाल नि. धामनोद भूमिस्वामी
				30/1	निजी	सिंचित	0.324	नहारसिंह पिता निर्भयसिंह व गुलाबबाई बेवा निर्भयसिंह जाति—राजपुत नि—दुधी भूमिस्वामी
				30/2	निजी	सिंचित	0.550	सौभागसिंह पिता निर्भयसिंह गुलाबबाई बेवा निर्भयसिंह जाति—राजपुत नि—दुधी भूमिस्वामी
				30/3	निजी	सिंचित	0.700	बागसिंह पिता निर्भयसिंह गुलाबबाई बेवा निर्भयसिंह जाति—राजपुत नि—दुधी भूमिस्वामी
				30/4	निजी	सिंचित	1.225	साहेबसिंह पिता निर्भयसिंह गुलाबबाई बेवा निर्भयसिंह जाति—राजपुत नि—दुधी भूमिस्वामी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				37	निजी	सिंचित	0.260	मणिकान्त पिता विश्वनाथ जाति- ब्राम्हण, नि-दूधी भूमिस्वामी
				38/2	निजी	सिंचित	0.192	मनोहर पिता विश्वनाथ जाति- ब्राम्हण, नि-दूधी भूमिस्वामी
				38/1	निजी	सिंचित	0.160	राधेश्याम पिता राजाराम जाति- लौधा नि-दूधी भूमिस्वामी
				40	निजी	सिंचित	0.040	ताराचन्द पिता दामा जाति-गवली नि-दूधी भूमिस्वामी
				41	निजी	सिंचित	0.050	दिलीप पिता राजाराम व मैनाबाई बैवा राजाराम जाति- लौधा नि-दूधी भूमिस्वामी
				42/2	निजी	सिंचित	0.200	
				43/1	निजी	सिंचित	0.200	त्रिलोचनसिंह पिता मलखानसिंह जाति नि-धामनोद भूमिस्वामी
				43/2	निजी	सिंचित	0.200	
				52	निजी	सिंचित	0.775	भागीरथ पिता गुसाई जाति- मट्टा, नि.धामनोद भूमिस्वामी
				58	निजी	सिंचित	0.350	रन्छोड़ पिता जाधव जाति-भारुड़ नि. ग्राम भूमिस्वामी
				59	निजी	सिंचित	0.080	
				57	निजी	सिंचित	0.057	राधेश्याम, दिलीप पिता राजाराम जाति-लौधा नि. दूधी भूमिस्वामी
				56	निजी	सिंचित	0.800	बसन्तीबाई पति पुरुषोत्तम जाति-ब्राम्हण, नि-दूधी भूमिस्वामी
				136/2	निजी	सिंचित	0.015	जयराम पिता गोविंद जाति-गवली नि-दूधी भूमिस्वामी
				138	निजी	सिंचित	0.070	सखाराम पिता रन्छोड़ जाति-भारुड़ नि- ग्राम भूमिस्वामी
				137	निजी	सिंचित	0.250	शिवराम पिता जयनन्दन जाति-ठाकुर नि-दूधी भूमिस्वामी
				141	निजी	सिंचित	0.500	
				159/3/2	निजी	सिंचित	0.550	रामेश्वर पिता मुरार जाति- कुलमी, नि.धामनोद भूमिस्वामी
				169/1	निजी	सिंचित	0.050	बाबु पिता परसराम जाति-गवली नि-ग्राम भूमिस्वामी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				169/2	निजी	सिंचित	0.500	महिमाराम पिता बाबूलाल जाति-गवली नि-ग्राम भूमिस्वामी
				160/3/1	निजी	सिंचित	0.550	जगदीश वगैरा पिता रामेश्वर जाति- कुलमी, नि.धामनोद भूमिस्वामी
				160/3/2	निजी	सिंचित	0.600	दशरथ पिता गणपत जाति- कुलमी, नि.धामनोद भूमिस्वामी
				162/2	निजी	सिंचित	0.400	कृष्णचन्द पिता सीताराम जाति- कुलमी, नि.धामनोद भूमिस्वामी
				163/1	निजी	सिंचित	0.130	चम्पिया पिता द्वारक्या जाति- कुलमी, नि.धामनोद भूमिस्वामी
				163/3/1	निजी	सिंचित	0.050	
				164/1/1	निजी	सिंचित	0.148	राधेश्याम पिता धन्नालाल जाति- कुलमी, नि.धामनोद भूमिस्वामी
				154	निजी	सिंचित	0.235	रामेश्वर पिता दशरथ व जगन्नाथ राजाराम मंशाराम पिता सखाराम जाति-मटवा, नि.धामनोद भूमिस्वामी
				155	निजी	सिंचित	0.500	
				25	शासकिय	पड़त	0.230	म.प्र. शासन(चरनोई)
				236/43	शासकिय	पड़त	0.150	म.प्र. शासन(चरनोई)
				53	शासकिय	पड़त	0.070	म.प्र. शासन(चरनोई)
				178	शासकिय	पड़त	0.080	म.प्र. शासन(नाली)
				54	शासकिय	पड़त	0.300	म.प्र. शासन(ना.का.चरनोई)
				55	शासकिय	पड़त	0.050	म.प्र. शासन(चरनोई)
				133	शासकिय	पड़त	0.080	म.प्र. शासन(नाली)
				142	शासकिय	पड़त	0.100	म.प्र. शासन(रास्ता)
				160/2	शासकिय	पड़त	0.154	म.प्र. शासन(नहर)
				162/1	शासकिय	पड़त	0.020	म.प्र. शासन(नहर)
				163/2	शासकिय	पड़त	0.250	म.प्र. शासन(नहर)
				162/1	शासकिय	पड़त	0.050	म.प्र. शासन(नहर)
				164/2	शासकिय	पड़त	0.050	म.प्र. शासन(नहर)
				156	शासकिय	पड़त	0.020	म.प्र. शासन(चरनोई)
						योग	12.821	
			(4) डोगनी	213	निजी	असिंचित	0.080	पुरन, गोपाल, मुन्ना, बद्दी, कन्नू, गणपत पिता गोविंद, काशीबाई, भगवती, गंगा, कांती पिता गोविंद, जमना पिता गोविंद ना.बा.कर्ता माता चन्दाबाई बेवा गोविंद, जाती :-गवली नि.गुजरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				212	निजी	असिंचित	0.010	पुरन, गोपाल, मुन्ना, बट्टी, कन्नु, गणपत पिता गोविंद, काशीबाई भगवती, गंगा, कांती पिता गोविंद, जमना पिता गोविंद ना.बा.कर्ता माता चंदाबाई बेवा गोविंद, जाती :-गवली नि.गुजरी
				217/3	निजी	सिंचित	0.170	सुखराम, शोभाराम, अमरसिंह पिता मंजा झामरीबाई बेवा मंगा जाति भील नि.ग्राम
				146	निजी	सिंचित	0.005	खण्डू पिता देवजा कावरबाई पिता झामरीया जाति- भील नि. ग्राम
				244	निजी	सिंचित	0.175	गंगाबाई, रंगाबाई, मीराबाई, गोदावरीबाई, पिता पडिया जाति भील नि ग्राम
				217/1	निजी	असिंचित	0.050	गबरू, सोमल्या, श्यामा, चागूल, धापूरामी, कुंजीबाई पिता गन्या व भवरीबाई बेवा गन्या जाति-भील नि -ग्राम
				100	निजी	सिंचित	0.015	झामरीया, अम्बू ननकू, मुतरीया पिता धूल्या झूमरा पिता सिंगदार जाति भील नि.ग्राम/मौके पर अम्बू, ननकू का कब्जा
				105	निजी	सिंचित	0.040	अम्बाराम, छोगालाल, पिता डवरिया जानकीबाई बेवा डवरिया जाति भील नि.ग्राम/मौके पर अम्बाराम पिता डवरिया का कब्जा
				226	निजी	सिंचित	0.480	उमराव पिता गोप्या, मदन अमरसिंह, रमेश, हजार, कमलाबाई, सोमलीबाई, मंगलीबाई पिता रूपसिंह ग्यासीबाई बेवा रूपसिंह, बेरसिंग, भंगवान अम्बाराम पिता सकरीया, दरियाव गट्टू पिता नागजी, गोगलबाई पिता भूटा गेंदिया, सुकराम पिता सोबान कोयलबाई बेवा सोबान पडनिया बुरया पिता गल्या मंगलीबाई बेवा गल्या, बुदीया पुना तेरसिंग पिता कोंदर, सीताराम, विक्रम, बिलोरसिंह पिता श्यामा जाति भील नि. ग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				228	निजी	सिंचित	0.140	पुंजा, कस्तुरीबाई, शांताबाई, गोगलबाई पिता रुग्गा जाति भील नि. ग्राम
				229	निजी	सिंचित	0.070	पुंजा, कस्तुरीबाई, शांताबाई, गोगलबाई पिता रुग्गा जाति भील नि. ग्राम
				232	निजी	सिंचित	0.010	बोंदर, शिया पिता घेघरिया जाति भील नि. ग्राम हितबद्ध छगन पिता बोंन्दर जाति भील. / मीके पर बोंन्दर पिता घेघरिया का कब्जा
				236	निजी	सिंचित	0.140	बोंदर, शिया मोरसिंह पिता घेघरीया जाति भील नि. ग्राम / मीके पर बोंन्दर पिता घेघरिया का कब्जा
				238	निजी	सिंचित	0.100	सुखलाल, नयमसिंह, बनुबाई, अनिता पिता मेहता, ना. बा. पा. कर्ता माता सन्तरायाई बेवा मेहताबसिंह जाति भीलाला, मीके पर रतन पिता बोंन्दर जाती भील का कब्जा
				243/2	निजी	सिंचित	0.130	गोपाल, हरेसिंग, तेरसिंग, पिता भद्रा जानकीबाई बेवा भद्रा मन्तु, कालू, लालू पुत्री लीला पिता वरसिंग शांतीबाई बेवा यरसिंग, नकुलबाई बेवा गंगाराम जाति भील नि. ग्राम
				251/1	निजी	सिंचित	0.201	गोरधन पिता गंगाराम जाती भील
				251/2	निजी	सिंचित	0.130	सीताशंकर पिता किशन जाती भील नि. ग्राम
				251/3	निजी	सिंचित	0.200	फूलसिंह उर्फ फुल्या पिता बापू जाति भील नि. ग्राम
				254/1	निजी	सिंचित	0.230	दरियाव पिता कालू नि. ग्राम जाति भील / कु. रानी पिता मैयालाल का मीके पर 1 मकान
				254/3	निजी	सिंचित	0.230	नाथू पिता कालू जाति भील नि. ग्राम
				204/4	निजी	सिंचित	0.110	गबरूपिता गन्या, सुन्दरीबाई पति गबरू जाति भील नि. ग्राम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				204/1	म.प्र. शासन 10% चरनोई	पड़त	0.300	म. प्र. शासन चरनोई (ताराचन्द पिता उमराव का मकान), (सुकराम पिता मंजी), (केशरिया पिता श्यामा का मकान), (मंशाराम पिता मोरसिंह का मकान)
				209	म.प्र. शासन (रास्ता)	पड़त	0.015	म.प्र. शासन
				216	म.प्र. शासन (नाला)	पड़त	0.010	म.प्र. शासन(नाला)
				147	म.प्र. शासन (ना. का. च.)	पड़त	0.050	म.प्र. शासन
				141	म.प्र. शासन	पड़त	0.080	म.प्र. शासन (दित्या पिता धुलिया का मकान)
				140	म.प्र. शासन	पड़त	0.126	म.प्र. शासन
				139	म.प्र. शासन ना. का. च.	पड़त	0.136	म.प्र. शासन
				136	म.प्र. शासन (नाला)	पड़त	0.025	म.प्र. शासन (नाला)
				137	म.प्र. शासन	पड़त	0.030	म.प्र. शासन (राजला पिता सावलों का मकान)
				130/1	म.प्र. शासन	पड़त	0.130	म.प्र. शासन
				235	म.प्र. शासन	पड़त	0.010	म.प्र. शासन (नाला)
				237	म.प्र. शासन	पड़त	0.500	म.प्र. शासन (आबांदी) सूखलाल पिता मेहताब, ईन्दर पिता छबिया
				246	म.प्र. शासन	पड़त	0.050	म.प्र. शासन (नाला)
				253	म.प्र. शासन	पड़त	0.164	म.प्र. शासन
				256	म.प्र. शासन	पड़त	0.670	म.प्र. शासन
				225	म.प्र. शासन	पड़त	0.930	म.प्र. शासन
						योग	5.942	
			(5) इकलेराखुर्द	28/1	निजी	सिंचित	0.850	नारायण पिता चम्पालाल जा.कुलमी, नि. धामनोद
				37	निजी	सिंचित	0.100	नारायण पिता चम्पालाल जा.कुलमी, नि. धामनोद
				43	निजी	सिंचित	0.600	धीसालाल चम्पालाल कृष्णचन्द भगवान पिता ऊँकार जा.कुलमी, नि. धामनोद
				47/1	निजी	सिंचित	0.120	दयानन्द पिता मोंगीलाल व बसुबाई पति मोंगीलाल जा.कुलमी, नि.गुलझरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				39	निजी	सिंचित	1.600	मोंगीलाल पिता अमीचन्द जा.कुलमी, नि.गुलझरा
				40	निजी	सिंचित	0.240	शोभाराम पिता नत्थु जा.कुलमी, नि.गुलझरा
				36	निजी	सिंचित	0.400	शातिलाल पिता भगवान जा.कुलमी, नि. धामनोद
				29/1/1	निजी	सिंचित	0.160	सरवण पिता छीतर जा.भारुड़ नि.गुलझरा
				104/23	निजी	सिंचित	0.220	हुकुमचन्द, दयानन्द, भगवान, पिता मोतीलाल जमुनाबाई बंवा मोतीलाल जा.कुलमी, नि.धामनोद
				44	शासकिय (बीड)	पड़त	0.070	म.प्र. शासन
				45	शासकिय (बीड)	पड़त	0.080	म.प्र. शासन
				42/1 ब	शासकिय (नि.चरनोई)	पड़त	0.600	म.प्र. शासन
				42/1/1 ब	शासकिय	पड़त	1.000	म.प्र. शासन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल (का.का.)
				42/1 स	शासकिय	पड़त	1.040	म.प्र. शासन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल (नि.चरनोई)
						योग	7.080	
			(8) गुजरी	77	निजी	सिंचित	0.800	मिठुलाल पिता कन्हैलाल जाती . महाजन, नि-ग्राम
				78	निजी	सिंचित	0.160	मिठुलाल पिता कन्हैलाल जाती . महाजन, नि-ग्राम
				76	निजी	सिंचित	0.360	मिठुलाल पिता कन्हैलाल जाती . महाजन, नि-ग्राम
				75	निजी	सिंचित	0.280	मिठुलाल पिता कन्हैलाल जाती . महाजन, नि-ग्राम
				74/2	निजी	सिंचित	0.240	मिठुलाल पिता कन्हैलाल जाती . महाजन, नि-ग्राम
				73	निजी	सिंचित	0.025	मिठुलाल पिता कन्हैलाल जाती . महाजन, नि-ग्राम
				74/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.160	मनिष पिता रमेशचन्द वगैरा जाती - महाजन, नि-ग्राम
				67/3	निजी	सिंचित	1.000	मनिष पिता सुभाषचन्द वगैरा जाती -अग्रवाल नि-धामनोद
				67/4	निजी	सिंचित	0.160	गिरधारीलाल पिता कजोरीमल वगैरा जाती -अग्रवाल नि-धामनोद

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				67/1	निजी	सिंचित	0.800	जगदीशचन्द पिता गिरधारीलाल वगैरा जाती—अग्रवाल नि—धामनोद
				50/6	निजी	सिंचित	0.360	आशादेवी पति सुभाषचन्द वगैरा जाती—अग्रवाल नि—धामनोद
				50/5/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.360	गोपाल कृष्ण पिता फुलचन्द वगैरा जाती—जायसवाल नि—गुजरी
				50/4/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.360	अशोककुमार पिता फुलचन्द वगैरा जाती—जायसवाल नि—गुजरी
				52/2	निजी	परिवर्तित भूमि	1.080	मनोरमाबाई पति बसन्तीलाल जाती—ब्राहमण नि—गुजरी
				53/4	निजी	परिवर्तित भूमि	0.200	रुघनाथ पिता पुन्या वगैरा जाती—भील नि—गुजरी
				53/3	निजी	असिंचित	0.128	फूलबाई बैवा पण्डु वगैरा जाती—भील नि—गुजरी
				3/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.160	गोरीशंकर पिता विश्वेश्वरदयाल जाती—ब्राहमण नि—गुजरी
				153/3	निजी	परिवर्तित भूमि	0.240	गोरीशंकर पिता विश्वेश्वरदयाल जाती—ब्राहमण नि—गुजरी
				18	निजी	सिंचित	0.841	छबुलाल पिता छगन वगैरा जाती—कलाल नि—गुजरी
				17/3/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.070	उमराव पिता बाल्या जाती —भील नि—गुजरी
				17/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.200	बसन्तीबाई पिता कपुरिया वगैरा जाती—भील नि—गुजरी
				17/1	निजी	असिंचित	0.240	कालु पिता जग्गु वगैरा जाती—भील नि—गुजरी
				5	निजी	असिंचित	0.160	फूलबाई बैवा पण्डु वगैरा जाती—भील नि—गुजरी
				6/1/1 व	निजी	सिंचित	0.280	कालु पिता जग्गु वगैरा जाती—भील नि—गुजरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				6/1/1 ग	निजी	परिवर्तित भूमि	0.480	नानुराम पिता तेरसिंह वगैरा जाती—भील नि—गुजरी
				6/1/1 ख	निजी	परिवर्तित भूमि	0.360	उमराव पिता बाल्या जाती—भील नि—गुजरी
				6/1/1 क	निजी	परिवर्तित भूमि	0.300	बसन्तीबाई पिता कपुरिया वगैरा जाती—भील नि—गुजरी
				160/6/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.160	बसन्तीबाई पिता कपुरिया वगैरा जाती—भील नि—गुजरी
				68	शासकिय	पड़त	0.100	म.प्र. शासन (रास्ता)
				155/50	शासकिय	पड़त	0.050	म.प्र. शासन (रास्ता)
				19	शासकिय	पड़त	0.120	म.प्र. शासन (रास्ता)
						योग	10.234	
			(7) गुलझारी	16/3	निजी	सिंचित	0.480	नारायण, दिनेश तिलोक पिता शिकुवर बेवा नत्थू सुतार
				15/1	निजी	सिंचित	0.240	लक्ष्मीनारायण पिता शंकरलाल कुलमी
				15/3	निजी	सिंचित	0.080	लक्ष्मीनारायण पिता शंकरलाल कुलमी
				14/3	निजी	सिंचित	0.240	लक्ष्मीनारायण पिता शंकरलाल कुलमी
				14/1	निजी	सिंचित	0.010	लक्ष्मीनारायण पिता शंकरलाल कुलमी
				51/3	निजी	सिंचित	0.640	लीलाबाई पति पूनम मटठा.
				40/1	निजी	सिंचित	0.080	गणेश, कन्हैया विष्णु पिता सीताराम अयोध्या बेवा सीताराम
				13/1	निजी	सिंचित	0.051	रमेश, राजनाथ, महोदव विष्णु पिता कुवरजी
				50/3	निजी	परिवर्तित भूमि	0.720	अशोक पिता बाबुलाल महाजन
				49/1	निजी	सिंचित	0.160	रमेश पिता श्रीराम सुनार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				47/3	निजी	सिंचित	0.680	अभिमन्यु पिता भगवानदास
				48	निजी	सिंचित	0.280	रामलाल पिता राजाराम कुलमी
				44/1	निजी	सिंचित	0.010	रामलाल पिता राजाराम कुलमी
				45/1	निजी	सिंचित	0.160	रामलाल पिता राजाराम कुलमी
				46/3	निजी	परिवर्तित भूमि	0.320	लक्ष्मीनारायण पिता रामदयाल महाजन
				46/1	निजी	सिंचित	0.240	गणेश रमेश गणपत पिता चम्पालाल कुलमी / राधेश्याम, मुकेश पि. सीताराम भील
				69/1	निजी	सिंचित	0.010	दशरथ पिता बेचर मटठा
				65/3/1	निजी	सिंचित	0.000	सरिताबाई पति कल्याण माहेश्वरी
				66/1/3	निजी	सिंचित	0.420	राधु, मुकेश पिता सीताराम संतोषबाई, बंसतीबाई, रेशमबाई, अनिता बाई पिता सीताराम, सोनाबाई बेवा सीताराम
				65/5	निजी	सिंचित	0.480	बिहारी पिता गोपाल
				65/1/2/2	निजी	सिंचित	0.020	पूनम पिता नारायण मटठा
				65/1/3/2	निजी	सिंचित	0.100	रमेश पिता नारायण मटठा
				65/1/1, 65/1/2/1	निजी	सिंचित	0.500	रेवाराम पिता नारायण मटठा
				88	निजी	सिंचित	0.720	सखाराम, मांगीलाल पिता शिवा कुलमी
				86	निजी	सिंचित	0.640	जानकी बाई बेवा बाबु महादेव जगदीश रमेश्वर पिता बाबू कुसुमबाई सुमनबाई सुनीताबाई लक्ष्मीबाई पिता बाबू
				89/1	निजी	सिंचित	0.330	लक्ष्मीनारायण पिता शंकरलाल कुलमी
				89/2	निजी	सिंचित	0.420	घनश्याम पिता गणपत
				90	निजी	सिंचित	0.820	बाबूलाल पिता सीताराम मटठा
				85/3/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.600	सवित्रीबाई उर्फ माणकबाई पति कैलाशदास बाबाजी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				104	निजी	सिंचित	1.075	प्रेमलता बाई पति नरेन्द्र
				105/2	निजी	सिंचित	0.240	कल्याण पिता छोगालाल
				105/1	निजी	सिंचित	0.160	प्रहलाददास पिता लक्ष्मण दास/कैलाशदत्त लक्ष्मण दास
				102/1	निजी	सिंचित	1.505	गणपति पिता जयनारायण
				103/1/2	निजी	सिंचित	0.240	जगन्नाथ पिता नरासिंह, लक्ष्मीनारायण, शांताबाई पि. जगन्नाथ
				102/2	निजी	सिंचित	0.250	राधेश्याम पिता जयनारायण
				98/1	निजी	सिंचित	0.060	हुकुम दयानंद, भगवान पिता मोतीलाल, जमना बेवा मोतीलाल
				99	निजी	सिंचित	2.120	श्रीराम पिता शंकर सुनार
				46/2	शासकिय	पड़त	0.200	नहर शासकीय
				66/1/1	शासकिय	पड़त	0.500	शासकीय नि. चरनोई
				15/2	शासकिय	पड़त	0.150	नहर शासकीय
				16/2	शासकिय	पड़त	0.020	नहर शासकीय
				14/2	शासकिय	पड़त	0.150	नहर शासकीय
				13/2	शासकिय	पड़त	0.020	नहर शासकीय
				118/1	शासकीय रास्ता	पड़त	0.160	शासकीय रास्ता
						योग	16.301	
			(8) कालबुजुर्ग	32, 33/1	निजी	सिंचित	0.220	कस्तूरीबाई वगैरा पिता दिवाकर
				32, 33/2	निजी	सिंचित	0.220	श्रीराम पिता केशवराम
				32, 33/3	निजी	सिंचित	0.220	बालकृष्ण पिता केशवराम
				14/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.170	विरेन्द्र सिंह पिता भारतसिंह
						सिंचित	0.280	
				14/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.120	कुलदीप पिता रामसिंह
						सिंचित	0.290	
				16/1, 16/2, 16/3	निजी	परिवर्तित भूमि	0.020	राजेन्द्र पिता रमेशचंद
						सिंचित	0.180	
				34	निजी	परिवर्तित भूमि	0.240	जमनादास पिता गोपलादास (कब्जेदार इन्डियन ऑइल कार्पोरेशन-पेट्रोल पम्प)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				35/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.200	बाबुलाल पिता अमीचंद
				35/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.402	हुकुमचंद पिता अमीचंद
				48	निजी	परिवर्तित भूमि	0.360	कमलसिंह पिता धनसिंह
				49	निजी	असिंचित	0.250	गोवर्धन पिता बंशीधर,
				50/1/1	निजी	सिंचित	0.220	महादेव पिता बालिया
				50/2	निजी	सिंचित	0.220	जानकीबाई पति जगन्नाथ
				53/1	निजी	सिंचित	0.140	भीमसिंह पिता मांगीलाल
				39	निजी	परिवर्तित भूमि	0.320	रमेशचंद पिता भीलाजी
				53/3	निजी	परिवर्तित भूमि	0.150	रामलाल पिता शोभाराम
				54	निजी	परिवर्तित भूमि	0.280	महादेव पिता बाबुलाल
				55/1/1	निजी	सिंचित	0.200	सुरेश पिता राजाराम वगैरा
				55/1/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.004	लक्ष्मीचंद पिता मांगीलाल
				55/1/3	निजी	सिंचित	0.004	अनिल पिता बालमुकंद
				55/1/4	निजी	परिवर्तित भूमि	0.004	उमेश पिता रामेश्वर
				55/1/5	निजी	परिवर्तित भूमि	0.004	हरिशचंद पिता बंशीलाल
				56/2/2/1	निजी	सिंचित	0.004	कनकसिंह पिता साहबसिंह वगैरा
				56/2/2/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.004	ताराचंद पिता गेंदालाल
				59/1/1	निजी	सिंचित	0.020	उमाशंकर पिता कालु
				59/2	निजी	सिंचित	0.060	नरसिंह पिता राधाकृष्ण
				62/4/2/2	निजी	सिंचित	0.030	ज्योति पति नरसिंह
				62/4/1	निजी	सिंचित	0.040	क्षत्रिय समाज
				79/1	निजी	सिंचित	0.055	रामलाल पिता रतनलाल
						परिवर्तित भूमि	0.065	
				79, 80/1/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.100	किरणबाई पति ओमप्रकाश
				84	निजी	सिंचित	0.180	सुमन पति रमेश
				85/1/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.050	मीनाबाई पति हीरालाल
				85/1/1	निजी	सिंचित	0.100	धनुबाई पति भारत
				85/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.050	सुभद्रा बाई पति श्रीराम
				86	निजी	सिंचित	0.130	संजय वगैरा कैलाश
				87/1	निजी	सिंचित	0.100	कैलाश पिता गंगाराम

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				87/2	निजी	सिंचित	0.100	बाबूलाल पिता अनीचन्द्र
				88	निजी	सिंचित	0.140	नवल सिंह पिता कुवरजी
				89/1	निजी	सिंचित	0.034	गुलाबचन्द्र पिता बेचर
			परिवर्तित भूमि			0.126		
				89/2	निजी	सिंचित	0.160	कैलाश पिता भीलाजी
				93	निजी	सिंचित	0.180	रामलाल पिता शोभाराम
				95	निजी	सिंचित	0.240	बाबूलाल पिता नस्थु
				40/1	निजी	सिंचित	0.250	कैलाश पिता भिलाजी
				13	शासकीय	पड़त	0.063	म.प्र शासन (आबादी)
				12	शासकीय	पड़त	0.160	म.प्र शासन (नाला)
				71	शासकीय	पड़त	0.120	नि. चरनोई (छम्प) को हस्तांतरित
				78	शासकीय	पड़त	0.050	नि. चरनोई (P.H.F) को हस्तांतरित
				72	शासकीय	पड़त	0.050	म.प्र शासन (पी. एच.ई.) को हस्तांतरित (नाला)
				83	शासकीय	पड़त	0.060	म.प्र शासन रास्ता
						योग	7.439	
		(9) खालखुद		97/1/2	निजी	सिंचित	0.010	मोहनलाल—श्यामलाल
				97/3	निजी	असिंचित	0.013	अशोक पिता देवा
				99/1/3	निजी	परिवर्तित भूमि	0.040	आशाबाई—हुकुमचन्द्र
				102/3	निजी	सिंचित	0.030	जगन्नाथ—अंबाराम
				101/1	निजी	सिंचित	0.160	गजानन्द गणपति मांगीलाल
				101/3	निजी	सिंचित	0.010	गजानन्द गणपति मांगीलाल
				115/2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.010	नरसिंह—राधाकृष्ण
				114/3	निजी	परिवर्तित भूमि	0.040	नरसिंह—राधाकृष्ण
				112/1/2, क	निजी	परिवर्तित भूमि	0.070	नरसिंह—राधाकृष्ण
				112/1/2, ख	निजी	परिवर्तित भूमि	0.010	नरसिंह प्रहलाद—राधाकृष्ण
				112/1/4, क	निजी	परिवर्तित भूमि	0.003	नस्थु—छगन
				112/1/3/2/ 2	निजी	परिवर्तित भूमि	0.003	अब्दुलरहमान—अब्दुलसत्तार
				112/1/3/2/ 1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.005	मनीष—मोहनलाल
				112/1/3/2/ 4	निजी	परिवर्तित भूमि	0.002	मोहनलाल—मदनलाल
				112/1/3/2/ 14	निजी	परिवर्तित भूमि	0.002	बालु—रन्छोड़

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				112/1/3/2/ 7	निजी	परिवर्तित भूमि	0.002	कालू लालू—गरबड़
				112/1/3/2/ 8	निजी	परिवर्तित भूमि	0.002	गमर—हरचंद
				112/1/3/2/ 11	निजी	परिवर्तित भूमि	0.002	देवा—रन्छोड़
				112/1/3/2/ 13	निजी	परिवर्तित भूमि	0.002	बदिया—झापड़िया
				112/1/3/2/ 10	निजी	परिवर्तित भूमि	0.002	बीरबल—हरि
				112/1/3/2/ 1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.002	तुकाराम— रामदास
				112/1/3/2/ 15	निजी	पड़त	0.002	प्रभा—गोपाल
				112/1/3/2/ 12	निजी	परिवर्तित भूमि	0.003	सुजीत—नम्बीयार
				112/3/1/4	निजी	पड़त	0.005	मोतेसिह— हरेसिह
						योग	0.430	
			(10) मोरगड़ी	1/2	निजी	सिंचित	0.020	तृप्तिबाई पति मधुसूदन, लक्ष्मीबाई पति शंकरलाल जाति महाजन निवासी धामनोद
						योग	0.020	
			(11) सिरसोदिया	48/3	निजी	पड़त	0.130	शैतान बाई बेवा गंगाराम वगैरा
				51	निजी	पड़त	0.010	ताराबाई बेवा सीताराम वगैरा
				47	शासकिय	पड़त	0.130	म.प्र. शासन (नि.चर.)
				49	शासकिय	नाला	0.090	म.प्र. शासन (नाला.)
				54	निजी	सिंचित	0.170	ईजराम पिता सीताराम भारत वगैरा, ताराबाई बेवा सीताराम
				64/1	निजी	सिंचित	0.170	गीताबाई बेवा तोल्या मुकेश बुद्ध पिता प्रकाश वगैरा
				64/3	निजी	सिंचित	0.110	गीताबाई बेवा तोल्या मुकेश बुद्ध पिता प्रकाश वगैरा
				64/2	निजी	सिंचित	0.140	समोतीबाई पति कानजी जाति भील
				65	निजी	पड़त	0.291	गिरवर पिता खुमान जाति भीलाला नि. चिक्टयावाड़ भू—स्वामी
				66/1	निजी	असिंचित	0.160	मुख्तयार पिता मसिद खान जाति मुसलमान वगैरा नि. डेहरिया भू—स्वामी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				67/1	निजी	असिंचित	0.340	गफार खा छोटे खा मुख्तयार खा पिता सत्तार खा वगैरा
				67/2, 68	निजी	असिंचित	0.570	मुख्तयार पिता बसीर खान वगैरा
				69/2	निजी	सिंचित	0.360	सीताराम पिता रणजीत
				69/1	निजी	असिंचित	0.590	नत्थु पिता रणजीत वगैरा
				92/3	निजी	सिंचित	0.850	सीताराम पिता रणजीत
				119/1	शासकिय	पड़त	0.110	सरकारी भूमि निस्तार चरनोई
				119/3	निजी	असिंचित	0.400	कस्तुरी बाई पति फतिया
				117	शासकिय	पड़त	0.080	सरकारी भूमि ना.का.च
				118/3	निजी	असिंचित	0.030	गंगबाई बेवा नत्थु वगैरा
				111/1/3	निजी	पड़त	0.038	सुखलाल पिता मंगतिया
				111/1/4	निजी	पड़त	0.025	सुखलाल पिता मंगतिया
				111/1/1/1	निजी	पड़त	0.562	सुखलाल पिता मंगतिया
				111/1/1/3	निजी	पड़त	0.007	भारत पिता गप्पू
				111/2/1	निजी	पड़त	0.032	नन्कु पिता ऊकार वगैरा
				111/2/2	निजी	पड़त	0.379	शंभू पिता नानक्या
				111/2/3	निजी	पड़त	0.411	नन्कु पिता ऊकार वगैरा
				110	शासकिय	पड़त	2.010	म.प्र. शासन (नि.चर.)
				111/1/1/2	निजी	पड़त	0.014	शम्भुलाल पिता पूनमचंद
				107	निजी	असिंचित	0.260	चागुलबाई बेवा बन्डू वगैरा - कात्या पिता समोत्या वगैरा
				109	निजी	असिंचित	0.190	चागुलबाई बेवा बन्डू वगैरा - कात्या पिता समोत्या वगैरा
				108	शासकिय	पड़त	0.030	सरकारी निस्तार चरनोई
				106/3	निजी	पड़त	0.250	हरेसिंह पिता मनोहरसिंह
				98/2	निजी	पड़त	0.050	हरेसिंह पिता मनोहरसिंह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				90	निजी	सिंचित	0.270	गोपीबाई बेवा बाबु वगैरा
				297	निजी	सिंचित	0.550	खडकसिंह पिता अंतरसिंह वगैरा
				111/1/2	निजी	परिवर्तित	0.126	अजय पिता अनिरुद
						योग	9.935	
			(12) धामनोद	202	निजी	सिंचित	0.015	इन्दरसिंह पिता धनसिंह राजपूत धामनोद
				203	निजी	सिंचित	0.101	नारायण प्रभु पिता मुरार लाङ्कीबाई बेवा मुरार कुलमी धामनोद
				204	निजी	सिंचित	0.650	नारायण प्रभु पिता मुरार लाङ्कीबाई बेवा मुरार कुलमी धामनोद
				205	निजी	सिंचित	0.446	परसराम, सुखदेव, कैलाश, हरिराम पिता दयाराम व ताराबाई बेवा दयाराम कुलमी नि. धामनोद
				206	निजी	सिंचित	0.250	रणछोड़, डारक्या, कन्हैया पिता विश्राम जाति कुलमी नि. धामनोद
				219/1	निजी	सिंचित	0.081	गणपत पिता दगड़िया जाति कुलमी नि. धामनोद
				219/2	निजी	सिंचित	0.285	कैलाश पिता नत्थू जाति कुलमी नि. बिखरोन
				220	निजी	सिंचित	0.510	बाबूलाल पिता शंकर कुलमी नि. बिखरोन
				221/3	निजी	सिंचित	0.105	विनीता पति प्रशान्त खण्डेलवाल नि. मनावर
				221/1	निजी	सिंचित	1.890	रेखा पति चन्द्रप्रकाश, विनीता पति प्रशांत नि. मनावर व शिवानी पति पवन कुमार खण्डेवाल नि. इन्दौर राधा पति रामेश्वर माहेश्वरी नि. डही व मंजु पति सुरेशचन्द्र माहेश्वरी नि. सुसारी
				221/2	निजी	सिंचित	0.092	जयनारायण, रामेश्वर, रामगोपाल, गिरधारीलाल, राधेश्याम, गोरधनदास पिता लक्ष्मीनारायण, हरिनारायण, ओमप्रकाश पिता पूनमचंद जाति महाजन नि. धामनोद
				207	निजी	सिंचित	0.091	इन्दरसिंह पिता धनसिंह जाति राजपूत नि. धामनोद
				222	शासकीय	पड़त	0.044	नजूल शासन
						योग	4.560	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(13) लोधीपुरा	2/1	निजी	सिंचित	0.090	रंगाराम पिता बावरिया जाति भील भोंडल
				2/2	निजी	सिंचित	0.070	ऊदिया पिता बावरिया जाति भील भोंडल
				2/3/1	निजी	असिंचित	0.020	ललिताबाई पति जगदीश जाति भील
				2/3/2	निजी	असिंचित	0.020	बबीताबाई पति कैलाश जाति भीलाला
				2/4	निजी	असिंचित	0.020	रमेश पिता जामसिंह जाति भील नि. ग्रा. भोंडल
				2/5	निजी	असिंचित	0.020	पूनमचन्द्र पिता जामसिंह जाति भील नि. ग्रा. भोंडल
				2/6	निजी	असिंचित	0.030	लक्ष्मण पिता जामसिंह जाति भील भोंडल
				39/1/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.140	तारसिंह पिता नहारसिंह जाति भील नि. ग्रा., कब्जेदार - बलवंत सिंह पिता गुरुनाम सिंह
				39/2	निजी	सिंचित	0.105	कामल्या पिता छीतर जाति भील नि. ग्रा.
				43/3/1	निजी	सिंचित	0.040	कैलाश पिता नरसिंह जाति भील
				39/3	निजी	सिंचित	0.090	मेहताबाई, थावरीबाई, गजराबाई, सावजीबाई पिता धुल्या, झुमकाबाई बेवा धुल्या हीरालाल पिता रामसिंह कोताबाई, अमरीबाई मंगाबाई सुक्कीबाई, केलाबाई पिता रामसिंह चन्दाबाई बेवा रामसिंह देवीसिंह सुकराम पिता नाथू जाति भील सा. देह
				41/1/1	निजी	असिंचित	0.088	चियाबाई पति कन्हैया जाति भील
				41/1/3	निजी	असिंचित	0.060	चियाबाई पति कन्हैया जाति भील
				41/1/2	निजी	असिंचित	0.120	देवीसिंह पिता मोहन सिंह जाति भील
				43/1/2/1	निजी	पड़त	0.007	मुकेश पिता मंगलसिंह जाति भील
				43/1/2/2	निजी	सिंचित	0.100	कैलाश पिता नरसिंह जाति भील
				43/2/1	निजी	सिंचित	0.075	कैलाश पिता नरसिंह जाति भील
				41/2/1	निजी	असिंचित	0.020	कालू पिता ककड़िया जाति भील सा. देह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				44	निजी	सिंचित	0.200	मांगीलाल पिता सुक्या धापाबाई बेवा सुक्या बोदर कालू बाल्या पिता केकड़िया भील सा. देह
				47	निजी	सिंचित	0.140	मांगीलाल पिता सुक्या धापाबाई बेवा सुक्या भील सा. देह
				48	निजी	सिंचित	0.150	घियाबाई पति कन्हैया जाति भील/कब्जेदार गोपाल दिलीप पिता धनसिंह मिलाला नि. धानी
				50	निजी	सिंचित	0.110	मोहन, रमेश, कैलाश प्रतापसिंह राजाराम ओंकार, भीमसिंह व कमलीबाई पिता रूपाल, गजरीबाई बेवा रूपाल जाति भील नि. ग्रा. भूस्वामी
				52	निजी	सिंचित	0.110	दयाराम बाबूलाल रूपाबाई पिता झामरिया रंगाबाई बेवा झामरिया शंकर, पूजा पिता सोमला, नकुलबाई, पूंजीबाई अन्नुबाई पिता दुबल्या गुजरबाई बेवा दुबल्या श्रवण, चुन्नीलाल पिता हीरालाल रुखमाबाई पिता हीरालाल, कलाबाई बेवा हीरालाल जाति भील सा. देह/कब्जेदार मोहन, रमेश, कैलाश प्रतापसिंह, राजाराम, उंकार, भीमसिंह स्याल वगैरा जाति भील नि. ग्रा.
				53	निजी	सिंचित	0.134	कुसुमबाई पति छोटूसिंह जाति भीलाला सा. चिक्टयाबड़
			परिवर्तित भूमि			0.046		
				55	निजी	परिवर्तित रकबा	0.220	माहेश्वरी ट्रस्ट धामनोद अध्यक्ष रंगनाथ पिता मन्नालाल न्याती नि. धामनोद
				58	निजी	असिंचित	0.360	खड़कसिंह पिता हरेसिंह जाति भीलाला खलखुर्द
				190/1	निजी	असिंचित	0.370	ओमप्रकाश पिता प्रभुदयाल जाति महाजन धामनोद
				194/1, 194/2	निजी	सिंचित.	0.240	जसवंत सिंह, सुरेन्द्रसिंह पिता गुरुबख्शसिंह जाति सिक्ख नि. धामनोद
				202	निजी	सिंचित	0.120	कन्हैयालाल पिता गणपत जाति कुलमी गुलझरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				206/1	निजी	सिंचित	0.010	मोहन, निखिल, दिनेश पिता सिंगदार, मांगीबाई बेवा सिंगदार जाति बलाई गुलझरा
				193/1	निजी	सिंचित	0.304	रामचन्द्र, मोहनलाल, कैलाशचन्द्र, सुरेशचन्द्र, गोपालकृष्ण पिता रामनिवास सरजूबाई बेवा रामनिवास, महेशचन्द्र, ज्योति, सीमा, कविता पिता रामचन्द्र, कांताबाई बेवा रामचन्द्र, प्रकाशचन्द्र, शैलेन्द्र कुमार, पंकज कुमार, मधुबाला, पुनीता पिता मोहनलाल, गीताबाई बेवा मोहनलाल महाजन गुलझरा
						परिवर्तित भूमि	0.066	
				193/2	निजी	सिंचित	0.165	सरजूबाई बेवा रामनिवास जाति महाजन नि. गुलझरा
						परिवर्तित भूमि	0.105	
				40	शासकीय	पड़त	0.070	म. प्र. शासन
				57	शासकीय	पड़त	0.050	म. प्र. शासन
						योग	4.085	
			(14) बुंदियाल	103/2	निजी	सिंचित	0.080	महर्षि स्वामी राघवानन्दजी गुरु शिवलानन्द जी जाति ब्राम्हण नि. ग्रा. भूमिस्वामी
				102/1	निजी	सिंचित	0.050	प्रतापसिंह पिता दर्यावसिंह जाति भिलाला नि. ग्रा. भूमिस्वामी
				102/2	निजी	सिंचित	0.050	
				102/3	निजी	पड़त	0.060	छगन पिता केकड़ियाँ जाति भील नि. संजय नगर धामनोद
				99/2, 100/1	निजी	सिंचित	0.060	सुखराम पिता नवसा जाति भील नि. ग्रा. भूमिस्वामी
				100/2	निजी	पड़त	0.040	रतन पिता उदिया जाति भील नि. ग्रा. भूमिस्वामी
				98/1/2	निजी	सिंचित	0.040	सुखराम पिता नवसा जाति भील नि. ग्रा. भूमिस्वामी
				98/2	निजी	पड़त	0.050	रुग्गा पिता जामलीयाँ जाति भील नि. ग्रा. भूमिस्वामी
				97	निजी	पड़त	0.060	दर्याव मांगीलाल पिता कोला जाति भील नि. ग्रा. भूमिस्वामी
				94/3	निजी	सिंचित	0.120	पण्डया पूना पिता शोमान वगैरह जाति भील नि. ग्रा. भूमिस्वामी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				95/1	निजी	पड़त	0.020	कालु पिता इन्दरसिंह जाति भील नि. ग्रा. भूमिस्वामी
				21	निजी	सिंचित	0.040	मनदीप सिंह, गुरुदीप सिंह पिता सतनाम सिंह जाति सिक्ख नि. धामनोद
				24	निजी	सिंचित	0.230	मनदीप सिंह, गुरुदीप सिंह पिता सतनाम सिंह जाति सिक्ख नि. धामनोद
				25	निजी	सिंचित	0.100	मनदीप सिंह, गुरुदीप सिंह पिता सतनाम सिंह जाति सिक्ख नि. धामनोद
				27	निजी	सिंचित	0.020	मनदीप सिंह, गुरुदीप सिंह पिता सतनाम सिंह जाति सिक्ख नि. धामनोद
				20/2	निजी	सिंचित	0.010	वेलज्यां पिता छजमल जाति भील नि. ग्रा. भूमिस्वामी
				18/1	निजी	सिंचित	0.365	मनोहर पिता नानूराम केवट नि. धामनोद भूमिस्वामी
				18/2	निजी	सिंचित		मनोहर पिता नानूराम केवट नि. धामनोद भूमिस्वामी
				14/3,15/3	निजी	सिंचित	0.070	वेलज्यां पिता छजमल जाति भील नि. ग्रा. भूमिस्वामी
				14/2/3/2, 15/2/3/2, 14/2/3/1, 15/2/3/1	निजी	सिंचित	0.063	संजोरी बाई व बुरावी बाई पिता देवा व देवा पिता बावरियाँ जाति भील नि. ग्रा. भूमिस्वामी, दगड़िया दत्तक देवा व देवा पिता बावरियाँ जाति भील नि. ग्रा. भूमिस्वामी
				14/1, 15/1	निजी	सिंचित	0.060	वेलज्यां पिता छजमल जाति भील नि. ग्रा. भूमिस्वामी
				103/1	शासकीय	पड़त	0.100	म. प्र. शासन (शासकीय भूमि)
				28	शासकीय	पड़त	0.020	म. प्र. शासन (शासकीय भूमि)
				26	शासकीय	पड़त	0.379	म. प्र. शासन (शासकीय भूमि)
				16	शासकीय	पड़त	0.506	म. प्र. शासन (शासकीय भूमि)
				17	शासकीय	पड़त	0.150	म. प्र. शासन (शासकीय भूमि)
				19	शासकीय	पड़त	0.060	म. प्र. शासन (शासकीय भूमि)
				96	शासकीय	पड़त	0.125	म. प्र. शासन (शासकीय भूमि)
				46/1	शासकीय	पड़त	0.060	म. प्र. शासन (शासकीय भूमि)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				105	शासकीय	पड़त	0.821	म. प्र. शासन (शासकीय भूमि)
				23	शासकीय	पड़त	0.060	म. प्र. शासन (शासकीय भूमि)
				22	शासकीय	पड़त	0.101	म. प्र. शासन (शासकीय भूमि)
				20/1	शासकीय	पड़त	0.050	म. प्र. शासन (शासकीय भूमि)
						योग	4.020	
		165	विकरोन	216	निजी	सिंचित	0.740	सुरेन्द्र पिता बुदिचंद
				217	निजी	सिंचित	0.128	सुरेन्द्र पिता बुदिचंद
				215	निजी	सिंचित	0.114	भगवानदास पिता लक्ष्मणदास
				214	निजी	सिंचित	0.400	भगवानदास पिता लक्ष्मणदास
				213	निजी	सिंचित	0.900	भगवानदास पिता लक्ष्मणदास
				235	निजी	सिंचित	0.010	रमेश, जगदिश, महादेव, आत्माराम, कृष्णचंद पिता शंकरलाल
				236	निजी	सिंचित	0.025	रमेश, जगदिश, महादेव, आत्माराम, कृष्णचंद पिता शंकरलाल
				199	निजी	सिंचित	0.080	कन्हैया पिता पुनमचंद
				257/2	निजी	सिंचित	0.557	गुलाबबाई बेवा जगन्नाथ, परमानंद, दयानंद, पिता जगन्नाथ कुलनी
				212	निजी	सिंचित	0.708	ललितदास पिता प्रहलाददास
				257/1	निजी	सिंचित	0.556	धन्नालाल पिता धिस्व्या
				263	निजी	सिंचित	0.015	रणछोड़ पिता भिला, मंशाराम, आशाराम, पिता शोभाराम, जानकीबाई, कलाबाई, नीलाबाई, भगवतीबाई पिता शोभाराम कारकी बेवा शोभाराम
				262	निजी	सिंचित	0.100	रणछोड़ पिता भिला, मंशाराम, आशाराम, पिता शोभाराम, जानकीबाई, कलाबाई, नीलाबाई, भगवतीबाई पिता शोभाराम कारकी बेवा शोभाराम
				259	निजी	सिंचित	0.658	गुलाबबाई बेवा जगन्नाथ, परमानंद, दयानंद, पिता जगन्नाथ कुलनी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				258	निजी	सिंचित	0.532	संतोष, सुरेश, देवेन्द्र पिता नरोत्तम कारकी बेवा नरोत्तम
				260	निजी	सिंचित	0.101	गुलाबबाई बेवा जगन्नाथ, परमानंद, दयानंद, पिता जगन्नाथ कुलमी
				261	निजी	सिंचित	0.060	रणछोड़ पिता भिला, मंशाराम, आशाराम, पिता शोभाराम, जानकीबाई, कलाबाई, नीलाबाई, भगवतीबाई पिता शोभाराम कारकी बेवा शोभाराम
				319	निजी	सिंचित	0.260	द्वारक्या पिता देवचंद
				320	निजी	सिंचित	0.202	घनश्याम पिता बालचंद
				321	निजी	सिंचित	0.228	घनश्याम पिता बालचंद
				324	निजी	सिंचित	0.300	घनश्याम पिता बालचंद
				318	निजी	सिंचित	0.240	द्वारक्या पिता देवचंद
				316	निजी	परिवर्तित भूमि	0.250	सुशीलाबाई बेवा भगवान, गजानंद, शिवशंकर, नारायण पिता भगवान, कन्हैया, सुभाष, पिता मोतीलाल, तुलसीबाई बेवा मोतीलाल जगदीश पिता बाबू कुलमी
				315/1	निजी	परिवर्तित भूमि	0.500	सुशीलाबाई बेवा भगवान, गजानंद, शिवशंकर, नारायण पिता भगवान, कन्हैया, सुभाष, पिता मोतीलाल, तुलसीबाई बेवा मोतीलाल जगदीश पिता बाबू कुलमी
				325/1/1	निजी	सिंचित	0.234	मुकुन्द पिता झापड़िया
				325/1/2	निजी	सिंचित	0.133	टंटिया पिता झापड़िया
				327	निजी	सिंचित	0.290	मोतीलाल, जगदीश पिता जोगीलाल
				326/1	निजी	सिंचित	0.160	मोतीलाल, जगदीश पिता जोगीलाल
				348	निजी	सिंचित	0.051	लाड़कीबाई बेवा नत्थू, काशीराम, महेश पिता नत्थू
				344/2	निजी	सिंचित	0.360	लाड़कीबाई बेवा नत्थू, काशीराम, महेश पिता नत्थू
				346	निजी	सिंचित	0.060	लाड़कीबाई बेवा नत्थू, काशीराम, महेश पिता नत्थू
				347/3/2	निजी	सिंचित	0.080	महादेव, राजूबाई, नबीबाई पिता पून्या, दिनेश पिता सीताराम, रामीबाई, बेवा धीस्या

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				347/2	निजी	सिंचित	0.070	दयाराम पिता बुदिया
				347/1	निजी	सिंचित	0.060	केशव, ओंकार, पिता मोतीलाल
				347/3/1	निजी	सिंचित	0.050	परमानंद पिता विश्राम
				343/1	निजी	सिंचित	0.424	केशव, ओंकार, कुसुमबाई पिता मोतीलाल सेवन्ती बेवा मोतीलाल
				343/2	निजी	सिंचित	0.300	कलीबाई पति सुखलाल
				549/343/1	निजी	सिंचित	0.234	सीताबाई पिता बालू मटठा
				549/343/4	निजी	सिंचित	0.234	लताबाई पिता बालू मटठा
				344/1	निजी	सिंचित	0.050	राधेश्याम पिता धन्नालाल
				439/3	निजी	सिंचित	0.720	दयानंद, परमानंद, पिता नाराण, धन्नुबाई बेवा नाराण
				439/1/1	निजी	सिंचित	0.150	नानूराम पिता रामचन्द्र
				428/1	रास्ता	रास्ता	0.015	रास्ता
				439/2	नहर	नहर	0.080	नहर शासकिय
				544/427/3	निजी	सिंचित	0.040	नत्थू, कृष्णचंद पिता सीताराम तिलोक, आशाबाई पिता फत्तू, पारुबाई बेवा फत्तू
				544/427/2	नहर	नहर	0.063	नहर
				440/3	निजी	सिंचित	0.240	लक्ष्मण पिता मोग्या
				441/3/1/1	निजी	सिंचित	0.320	अंगूर, गजानन्द पिता कल्याण
				441/3/1/3	निजी	सिंचित	0.350	कल्याण पिता मंगत्या, द्वारकी बेवा शोभाराम, सचिन, कमलेश पिता शोभाराम
				432	निजी	सिंचित	0.020	नारायण, भगवान, पप्पू, शांताबाई, रामुबाई, भरललबाई, गेंदाबाई, लक्ष्मीबाई, सीताबाई, पिता संथा भासड़
				434	निजी	सिंचित	0.180	गंगाबाई पति घनश्याम
				435	निजी	सिंचित	0.080	शारदाबाई पति राजेन्द्र
				436	निजी	सिंचित	0.080	प्रवीण पिता ब्रजलाल, संतोष, जितेन्द्र पिता रामेश्वर
				437	निजी	सिंचित	0.840	अजुध्याबाई बेवा मोतीलाल, राधेश्याम, गणपति, गणेश, पिता मोतीलाल कुलमी
				506	निजी	सिंचित	0.120	द्वारकाबाई पति चुन्नीलाल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				508	निजी	सिंचित	0.160	श्यामलाल कल्याण पिता चुन्नीलाल
				509	निजी	सिंचित	0.760	कस्तूरीबाई बेवा खुश्याल, अशोक, राजेन्द्र पिता सुश्याल
				510	निजी	सिंचित	0.320	कमलेश पिता हुकुम
				511/3	निजी	सिंचित	0.400	महेश पिता पूनमचंद
				507	निजी	सिंचित	0.200	श्यामलाल कल्याण पिता चुन्नीलाल
				438	रास्ता	पड़त	0.100	रास्ता
				250/1	रास्ता	पड़त	0.040	रास्ता (शासकिय)
				345	निजी	सिंचित	0.202	कड़वीबाई बेवा बालू, गुलाबबाई, गीताबाई, सीताबाई, लताबाई पिता बालू, राजाराम पिता शंकर, पूनिया पिता गप्पू, केशव, ओंकार, कुसुमबाई पिता मोतीलाल, सेवंतीबाई बेवा मोतीलाल, राघेश्याम, गोविन्द, पप्पू पिता धन्नालाल, प्रेमबाई, लक्ष्मीबाई पिता धन्नालाल, रामीबाई बेवा घिस्सा, दिनेश पिता सिताराम, सुरजबाई बेवा सिताराम, मांग्या पिता सेवोराम, नत्थू पिता चंपालाल, बन्डू पिता राधू मटठा
						योग	15.934	

[फा. सं. भारतप्रा/बीओटी/11013/13/2005/एलए/182/धर्मपुरी]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2007

S.O. 186(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O 1180 (E), dated the 26th July, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 3 on the Stretch of land from design chainage 55.758 to 56.966 and 58.392 to 77.610 (Indore – Khalghat Section) in District Dhar in the State of Madhya Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Nai Duniya”, dated the 18th August, 2006 and in “Choutha Sansar”, dated the 20th August, 2006 and the 21st August, 2006; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Design chainage 55.758 to 56.966 to 58.392 to 77.610 (Indore - Khalghat Section) of the National Highway No. 3 in the State of Madhya Pradesh.								
Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area in hectares	Name of the land owner / interested persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Dhar	Dharampuri	(1) Chiktiyawad	228	Private	Irrigated	0.060	Amar Singh, Heera Vagera, Gappu Mulan Singh S/o Ditya
				210 224/1	Private	Parat	0.060	Roman Catholic Caste (Dhani)
				224/2/2	Private	Irrigated	0.070	Mangilal, Ratan Singh S/o Hema
				226	Government	Aabadi	0.070	M.P. Government Ration Shop
				223	Private	Parat	0.020	Kishanlal, Nauram S/o Devaji, Punal, Ram, Maina Ram Ranchod, Punibai D/o Devaji Kaniram, Gopal S/o Puna Vagera
				221	Government	Aabadi	0.080	M. P. Government (Aabadi) Chotu Singh S/o Mangilal, Heeralal S/o Khemaji, Arjun S/o Narayan, Chunnilal S/o Gamnaji, Ambaram S/o Poonamchand, Poonamchand S/o Mulchand, Gram Panchayat Bhawan Old, Ambaram, Rameshwar S/o Asharam, Dinesh S/o Gordhan, Teejabai W/o Nanuram
				217/1	Private	Parat	0.011	Balram, Vimla, Munni Basanti, Shankarlal, Ramchandra Kesarbai, Mulibai W/o Late Pema Vagera

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				217/2	Private	Parat	0.004	Bhupendra S/o Laxman Singh
				216	Government	Parat	0.060	M. P. Government Public Health Centre (Aabadi), Nanuram S/o Mangtya, Harishchandra Bundela, Punibai W/o Heeralal, Sohan S/o Babu Devisingh S/o Bheraji Ambaram Devisingh
				451/1	Government	Parat	0.021	M. P. Government Na. Ka. Cha.
				451/2	Private	Parat	0.010	Natthu S/o Shivji
				451/3	Government	Charnoi	0.020	M. P. Government Na. Ka. Cha.
				449	Private	Diverted Land	0.190	Om Prakash S/o Satyanarayan M/s Bidasariya Mills Pvt. Ltd. Indore
				450	Private	Parat	0.040	Om Prakash S/o Satyanarayan M/s Bidasariya Mills Pvt. Ltd. Indore
				398	Government	Parat	0.460	Naran S/o Ganpat, Chandrashekhar - Champalal, Tilok - Buda
				399/1	Private	Parat	0.506	Pawan kumar S/o Babulal
				399/2	Private	Diverted Land	0.140	Pawan kumar Pradhuman S/o Mohan
				396/4	Private	Irrigated	0.078	Natthu S/o Moti
				396/3	Private	Diverted Land	0.160	Pawan kumar Pradhuman S/o Mohan
				394	Private	Diverted Land	0.090	Sandeep S/o Kishorilal
				395/1	Private	Irrigated	0.050	Natthu S/o Moti
				395/3	Private	Irrigated	0.110	Natthu S/o Moti
				275	Government	Parat	0.040	M. P. Government (Rasta)
				272/2	Private	Diverted Land	0.008	Omprakash S/o Manol Singh S/o Ramdev Singh Vagera
				271	Private	Diverted Land	0.160	Purshottam Jamnadas S/o Tejkarani Rathi President of Woolens Factory Pvt. Ltd. Vagera
				202/1	Private	Diverted Land	0.060	Rajeev S/o Ramgopal Bidasariya
				202/2	Private	Diverted Land	0.040	Purshottam Jamnadas S/o Tejkarani Rathi President of Woolens Factory Pvt. Ltd. Vagera

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				513	Government	Parat	0.250	M. P. Government (Nistar Charnoi)
				514/3/1	Private	Diverted Land	0.025	Ramgopal S/o Satyanarayan Bidasariya
				514/1	Private	Diverted Land	0.025	R.S.L. Limited Unit no. 2 Director Rahul S/o Ramgopal Bidasariya
				442/2	Private	Parat	0.050	Motilal S/o Jagannath
				512	Private	Diverted Land	0.330	Mahaveer S/o Satyanarayan Bidasariya
				479	Private	Diverted Land	0.180	Mahaveer S/o Satyanarayan Bidasariya
				442/1	Private	Diverted Land	0.190	S.D.C. Industries Pvt. Ltd. Dhani Rahul S/o Ramgopal Bidasariya
				445/1	Private	Diverted Land	0.125	Purvi Lakshmi ltd. Dhani Director Rahul S/o Ramgopal Bidasariya
				445/2	Private	Diverted Land	0.125	Jaswant Singh S/o Ratan Singh
				441/1/1/1	Private	Non Irrigated	0.030	Mangilal S/o Ratna
				441/1/1/2	Private	Parat	0.010	Dayaram S/o Mangilal
				441/3	Private	Parat	0.010	Dayaram S/o Mangilal
				441/1/2	Private	Parat	0.011	Govindkumar S/o Umanath
				441/1/3	Private	Parat	0.004	Rajkumar S/o Sahdev
				480	Government	Nalla	0.030	M. P. Government (Nalla)
				441/2/1	Private	Parat	0.030	Kalyan S/o Nanuram Teejabai Vagera
				441/2/2	Private	Diverted Land	0.011	Shri Krishna S/o Dhannalal
				441/2/3	Private	Parat	0.012	Kalyan S/o Nanuram Teejabai Vagera
				441/2/4	Private	Diverted Land	0.022	Omprakash S/o Govindrao
				441/2/10	Private	Parat	0.007	Manorama Bai W/o Ravindra Singh
				441/2/5	Private	Parat	0.011	Chotu Singh S/o Mangilal
				441/2/6	Private	Parat	0.011	Shivbahadur S/o Rustam Singh
				441/2/7	Private	Parat	0.011	Kalyan S/o Nanuram Teejabai Vagera
				441/2/8	Private	Parat	0.011	Pradeep S/o Dayaram
				441/2/9	Private	Parat	0.003	Pradeep S/o Dayaram
				441/4	Private	Diverted Land	0.010	Kanhaiyalal S/o Jaymal
				441/5	Private	Diverted Land	0.010	Shantidevi D/o Ghanshyamdas
				441/6	Private	Diverted Land	0.013	Mangilal S/o Ratna

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				441/7	Private	Diverted Land	0.012	Chandrashekhar, Rakesh S/o Chamapalal
				232/1/1	Private	Parat	0.156	Rukmabai W/o Late Babudas, Champalal
				232/1/2	Private	Diverted Land	0.007	Rajendra Kumar S/o Champalal
				232/2	Private	Diverted Land	0.011	Radhey Shyam S/o Kriparam
				232/3	Private	Parat	0.013	Nenru Antama S/o Subaredi
				232/4	Private	Diverted Land	0.012	Shantabai Urf Shardabai W/o Ramnarayan
				233	Private	Parat	0.013	Bherusingh, Kishan S/o Chunnilal
				234	Private	Diverted Land	0.025	Puna S/o Pura
				235	Private	Parat	0.038	Pir Khan Sardarkhan S/o Hasnkhan Vagera
				236/1	Private	Parat	0.009	Premal S/o Raghunath Prasad
				236/2	Private	Parat	0.004	Rameshchandra S/o Sewaram
				238	Government	Aabadi	0.085	M. P. Government (Aabadi) Gram Sewak Niwas, Kailash S/o Nandu
				258/2/1/1	Private	Diverted Land	0.006	Rajesh S/o Purshottam
				258/2/1/2	Private	Parat	0.010	Hariram S/o Kishanlal Vagera
				258/2/1/3	Private	Diverted Land	0.003	Premchand S/o Govindrao
				258/2/2	Private	Diverted Land	0.010	Yogendra Singh S/o Gordhan Singh
				259/2/1	Private	Diverted Land	0.023	Laxmibai W/o Kishanlal
				259/2/2	Private	Diverted Land	0.013	Laxmibai W/o Kishanlal
				259/2/3	Private	Irrigated	0.204	Santosh Kumar S/o Kishanlal
				259/1	Private	Diverted Land	0.250	Gendalal S/o Kishanlal
				261	Private	Parat	0.100	Laxmibai W/o Kishanlal
				262/1	Private	Irrigated	0.470	Jagdish S/o Kishanlal
				472	Government	Nalla	0.009	M. P. Government (Nalla)
				264	Government	Parat	0.550	M. P. Governemnt (Ni.Cha.) Shanta Singh Buta Singh
				265/1	Private	Diverted Land	0.090	Kedarmal S/o Gopi kishan, Sunita W/o Maheshchand

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				265/2	Private	Diverted Land	0.140	Kedarmal S/o Radhey Shyam S/o Gopi Kishan
				265/3	Private	Diverted Land	0.140	Sunita W/o Mahesh Chand
				266/2	Government	Aabadi	0.330	M. P. Governemnt (Aabadi), Gurudwar 1 Pukka, 1 Pukka House Munna S/o Dashrath, Totaram S/o Gudiya, 1 Passengers Stop (Government)
				267	Government	Parat	0.050	M. P. Government (Na. Ka. Char.)
				203/1	Private	Diverted Land	0.040	Pawan Kumar Madanlal
				203/2	Private	Diverted Land	0.010	Reliance Industries
				204/1/2/1	Private	Diverted Land	0.020	Reliance Industries
				204/1/1	Private	Diverted Land	0.039	Reliance Industries
				204/1/2/2	Private	Diverted Land	0.040	Parvat Singh S/o Hate Singh
				204/1/3	Private	Irrigated	0.040	Kali W/o Josingh Vagera
				206/1	Private	Irrigated	0.025	Girdhari S/o Ramchand
				206/2	Private	Irrigated	0.025	Kishanlal S/o Badrinarayan
				205	Private	Irrigated	0.070	Omprakash S/o Ramdev Singh
				460	Government	Parat	0.028	M. P. Government (Nalla)
				474	Private	Diverted Land	0.130	Ramgopal S/o Satyanarayan
				475	Private	Diverted Land	0.034	Ramgopal S/o Satyanarayan
				403	Private	Parat	0.243	Natthu S/o Moti
				404	Private	Non Irrigated	0.250	Khadak Singh Mahesndra Pal Singh S/o Antar Singh Vagera
				405/1	Private	Irrigated	0.404	Navneet S/o Gopaldas, Giriraj S/o Krishnalal Vagera
				405/3	Private	Irrigated	0.060	Navneet S/o Gopaldas, Giriraj S/o Krishnalal Vagera
				405/2	Government Nahar	Parat	0.050	M.P. Government (Nahar)
						Total	8.466	
			(2) Dhariya	12/1	Private	Diverted Land	0.050	Kusumbai W/o Late Manoharlal, Sanjay S/o Manoharlal Caste - Jaiswal R/o Dehariya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				13	Private	Irrigated	0.640	Natthu Kanhaiya S/o Sukhram Vagera, Caste - Bhil, R/o Dehariya
				14	Private	Irrigated	0.650	Dariyaav S/o Mulya, Caste - Bhil, R/o Dehariya
				15/1	Private	Diverted Land	0.100	Maheshchandra S/o Babulal Vagera, Caste - Jaiswal, R/o Dehariya
				16/1	Private	Diverted Land	0.640	Kanhaiyalal S/o Shobharam Vagera, Caste - Jaiswal, R/o Dehariya
				22	Government	Parat	0.920	M. P. Government (RIVER KARAM)
						Total	3.000	
			(3) Dudhi	237/27/1	Private	Parat	0.020	Shobharam S/o Ganpat, Caste - Bhil, R/o Gram Bhuswami
				237/27/2	Private	Parat	0.030	Sanjay S/o Ramesh Caste Bhilala R/o Dhani
				27/1	Private	Irrigated	0.026	Aruanbai W/o Hemant Kumar, Shardabai W/o Vijay Kumar, Caste - Mahajan, R/o Dharampuri, Bhuswami
				29/2/1/1	Private	Irrigated	0.050	Pranay Kumar S/o Kailashchandra, Caste - Agrawal, R/o Kanchanbagh, Indore Bhuswami
				29/2/1/2	Private	Irrigated	0.070	Mangilal S/o Babu, Caste - Bharud, R/o Guljhara, Bhuswami
				29/2/2/2	Private	Diverted Land	0.310	Subhashchandra, Jagdish S/o Girdharilal, Caste - Agrawal, R/o Dhamnod, Bhuswami
				30/1	Private	Irrigated	0.324	Nahar Singh S/o Nirbhay Singh and Gulabbai W/o Late Nirbhay Singh, Caste - Rajput, R/o Dudh, Bhuswami
				30/2	Private	Irrigated	0.550	Soubhag Singh S/o Nirbhay Singh, Gulab bai W/o Late Nirbhay Singh, Caste - Rajput, R/o Dudhi, Bhuswami
				30/3	Private	Irrigated	0.700	Baagsingh S/o Nirbhay Singh, Gulab bai W/o Late Nirbhay Singh, Caste - Rajput, R/o Dudhi, Bhuswami

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				30/4	Private	Irrigated	1.225	Saheb Singh S/o Nirbhay Singh, Gulabbai W/o Late Nirbhay Singh, Caste - Rajput, R/o Dudhi, Bhuswami
				37	Private	Irrigated	0.260	Mani Kant S/o Vishwanath, Caste - Brahman, R/o Dudhi, Bhuswami
				38/2	Private	Irrigated	0.192	Manohar S/o Vishwanath, Caste - Brahman, R/o Dudhi, Bhuswami
				38/1	Private	Irrigated	0.160	Radhey Shyam S/o Rajaram, Caste - Lodha, R/o Dudhi, Bhuswami
				40	Private	Irrigated	0.040	Tarachand S/o Dama, Caste - Gawali, R/o Dudhi, Bhuswami
				41	Private	Irrigated	0.050	Dilip S/o Rajaram and Maina Bai W/o Late Rajaram, Caste - Lodha, R/o Dudhi, Bhuswami
				42/2	Private	Irrigated	0.200	
				43/1	Private	Irrigated	0.200	Trilochan Singh S/o Malkhan Singh, Caste - R/o Dhamnood, Bhuswami
				43/2	Private	Irrigated	0.200	
				52	Private	Irrigated	0.775	Bhagirath S/o Gusai, Caste - Mattha, R/o Dhamnood, Bhuswami
				58	Private	Irrigated	0.350	Ranchod S/o Jadhav, Caste - Bharud, R/o Gram, Bhuswami
				59	Private	Irrigated	0.080	
				57	Private	Irrigated	0.057	Radhey Shyam, Dilip S/o Rajaram, Caste - Lodha, R/o Dudhi, Bhuswami
				56	Private	Irrigated	0.800	Basanti bai W/o Purshottam, Caste - Brahman, R/o Dudhi, Bhuswami
				136/2	Private	Irrigated	0:015	Jayram S/o Govind, Caste Gawli, R/o Dudhi, Bhuswami
				138	Private	Irrigated	0.070	Sakharam S/o Ranchod, Caste - Bharud, R/o Gram, Bhuswami
				137	Private	Irrigated	0.250	Shivram S/o Jaynandan, Caste - Thakur, R/o Dudhi, Bhuswami
				141	Private	Irrigated	0.500	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				159/3/2	Private	Irrigated	0.550	Rameshwar S/o Murar, Caste - Kulmi, R/o Dhamnod, Bhuswami
				169/1	Private	Irrigated	0.050	Babu S/o Parasram, Caste Gawli, R/o Gram, Bhuswami
				169/2	Private	Irrigated	0.500	Mahimaram S/o Babulal, Caste - Gawli, R/o Gram, Bhuswami
				160/3/1	Private	Irrigated	0.550	Jagdish Vagera S/o Rameshwar, Caste - Kulmi, R/o Dhamnod, Bhuswami
				160/3/2	Private	Irrigated	0.600	Dashrath S/o Ganpat, Caste - Kulmi, R/o Dhamnod, Bhuswami
				162/2	Private	Irrigated	0.400	Krishnachand S/o Sitaram, Caste - Kulmi, R/o Dhamnod, Bhuswami
				163/1	Private	Irrigated	0.130	Champiya S/o Dwarkya, Caste - Kulmi, R/o Dhamnod, Bhuswami
				163/3/1	Private	Irrigated	0.050	
				164/1/1	Private	Irrigated	0.148	Rasheysyam Dhannalal, Caste - Kulmi, R/o Dhamnod, Bhuswami
				154	Private	Irrigated	0.235	Rameshwar S/o Dashrath and Jagannath S/o Mansharam S/o Sakharam, Caste - Mattha, R/o Dhamnod, Bhuswami
				155	Private	Irrigated	0.500	
				25	Government	Parat	0.230	M. P. Government (Charnoi)
				236/43	Government	Parat	0.150	M. P. Government (Charnoi)
				53	Government	Parat	0.070	M. P. Government (Charnoi)
				178	Government	Parat	0.080	M. P. Government (Nalla)
				54	Government	Parat	0.300	M. P. Government (Na. Ka. Charnoi)
				55	Government	Parat	0.050	M. P. Government (Charnoi)
				133	Government	Parat	0.080	M. P. Government (Nalla)
				142	Government	Parat	0.100	M. P. Government (Rasta)
				160/2	Government	Parat	0.154	M. P. Government (Nahar)
				162/1	Government	Parat	0.020	M. P. Government (Nahar)
				163/2	Government	Parat	0.250	M. P. Government (Nahar)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				162/1	Government	Parat	0.050	M. P. Government (Nahar)
				164/2	Government	Parat	0.050	M. P. Government (Nahar)
				156	Government	Parat	0.020	M. P. Government (Charnoi)
						Total	12.821	
			(4) Dugani	213	Private	Non irrigated	0.080	Puran , Gopal, Munna, Badri, Kannu, Ganpat S/o Govind, Kashibai Bhagwati, Ganga, Kanti D/o Govind, Jamna D/o Govind, Na. Ba. Karta. Mother Chanda Bai W/o Late Govind, Caste - Gawli , R/o Gujri
				212	Private	Non irrigated	0.010	Puran , Gopal, Munna, Badri, Kannu, Ganpat S/o Govind, Kashibai Bhagwati, Ganga, Kanti D/o Govind, Jamna D/o Govind, Na. Ba. Karta. Mother Chanda Bai W/o Late Govind, Caste - Gawli , R/o Gujri
				217/3	Private	Irrigated	0.170	Sukhran , Shobharam, Amar Singh S/o Manja Jhamri Bai W/o Late Manga, Caste - Bhil , R/o Gram .
				146	Private	Irrigated	0.005	Khandu S/o Devja Kawarbai, D/o Jhamariya , Caste - Bhil , R/o Gram.
				244	Private	Irrigated	0.175	Gangabai , Rangabai, Meerabai, Godavaribai, D/o Padiya , Caste - Bhil , R/o Gram
				217/1	Private	Non irrigated	0.050	Gabru, Somalya, Shyama, Changul, Dhapu, Rami, Kunji Bai D/o Ganya and Bhanwari Bai W/o Late Ganya, Caste - Bhil, R/o Gram.
				100	Private	Irrigated	0.015	Jhamariya, Ambu, Nanku, Mutariya S/o Dhulya, Jumra S/o Singdar, Caste - Bhil R/o Gram./ Possession of Ambu and Nanku

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				105	Private	Irrigated	0.040	Ambaram, Chogalal S/o Davariya, Jankibai W/o Dabariya / Possession of Ambaram S/o Davariya on Spot
				226	Private	Irrigated	0.480	Umrav S/o Gopya, Madan, Amar Singh, ramesh , hajar, Kamlabai, Somlibai, Mangli bai D/o Rup Singh, Gyarasi Bai W/o Late Rup Singh, Ber Singh, Bhagwaan, Ambaram S/o Sakariya, Dariyav, Gattu S/o Nagji, Gogalbai D/o Bhuta Gondiya, Sukram S/o Soban, Koyalbai W/o Late Soban Padatiya, Buriya S/o Galya, Mangali Bai W/o Galya, Budiya Puna, Tersingh S/o Kondar, Sitaram , Vikram, Bilor Singh S/o Shyama , Caste Bhil , R/o Gram.
				228	Private	Irrigated	0.140	Punja, Kasturi Bai, Shantabai, Gogalbai D/o Rugma , Caste - Bhil, R/o Gram.
				229	Private	Irrigated	0.070	Punja, Kasturi Bai, Shantabai, Gogalbai D/o Rugma , Caste - Bhil, R/o Gram.
				232	Private	Irrigated	0.010	Bondar, Shiva S/o Gheghariya, caste - Bhil, R/o Gram. / Possession of Bondar S/o Gheghariya on Spot
				236	Private	Irrigated	0.140	Bondar, Shiva S/o Morsingh S/o Gheghariya, Caste - Bhil , R/o Gram. / Possession of Bondar S/o Gheghariya on Spot
				238	Private	Irrigated	0.100	Sukhlal, Nayan Singh , Banu Bai, Anita D/o Mehtab, Na. Ba. Pa. katra Mother Santra bai W/o Late Mehtab Singh Caste - Bhilala / Possession of Ratan S/o Bondar Caste Bhil on Spot

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				243/2	Private	Irrigated	0.130	Gopal, Gangaram, Hare Singh, Tersingh S/o Bhadra, Janki Bai W/o Late Bhadra, Nantu, Kalu, Lalu, Daughter Leela D/o Var Singh Shantibai W/o Late Wav Singh, Caste - Bhil, R/o Gram.
				251/1	Private	Irrigated	0.201	Gordhan S/o Gangaram Caste Bhil
				251/2	Private	Irrigated	0.130	Sitaram S/o Kishan, Caste - Bhil, R/o Gram
				251/3	Private	Irrigated	0.200	Phool Singh Urf Fulya S/o Bapu, Caste - Bhil, R/o Gram.
				254/1	Private	Irrigated	0.230	Dariyav S/o Kalu R/o Gram, Caste - Bhil. / Possession of Ku. Rani D/o Bhaiyalal on Spot (1 House)
				254/3	Private	Irrigated	0.230	Nathu S/o Kalu, Caste - Bhil, R/o Gram.
				204/4	Private	Irrigated	0.110	Gabru S/o Ganya, Sundari Bai W/o Gabru Caste - Bhil, R/o Gram
				204/1	M. P. Government 10% Charnoi	Parat	0.300	M.P. Government Charnoi (House of Tarachand S/o Umrav, and Sukram S/o Manji, House of Keshariya S/o Shyama, House of Mansharam S/o Mor Singh)
				209	M. P. Government (Rasta)	Parat	0.015	M. P. Government
				216	M. P. Government (Nalla)	Parat	0.010	M. P. Government (Nalla)
				147	M. P. Government (Na. Ka. Cha.)	Parat	0.050	M. P. Government
				141	M. P. Government	Parat	0.080	M. P. Government (House of Ditya S/o Dhuliya)
				140	M. P. Government	Parat	0.126	M. P. Government
				139	M. P. Government (Na. Ka. Cha.)	Parat	0.136	M. P. Government

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				136	M. P. Government (Nalla)	Parat	0.025	M. P. Government (Nalla)
				137	M. P. Government	Parat	0.030	M. P. Government (House of Rajla S/o Sawala)
				130/1	M. P. Government	Parat	0.130	M. P. Government
				235	M. P. Government	Parat	0.010	M. P. Government (Nalla)
				237	M. P. Government	Parat	0.500	M. P. Government (Aabadi) Sukhlal S/o Mehtab, Inder S/o Chabiya
				246	M. P. Government	Parat	0.050	M. P. Government (Nalla)
				253	M. P. Government	Parat	0.164	M. P. Government
				256	M. P. Government	Parat	0.670	M. P. Government
				225	M. P. Government	Parat	0.930	M. P. Government
						Total	5.942	
			(5) Iklera Khurd	28/1	Private	Irrigated	0.850	Narayan S/o Champalal Caste Kulmi R/o Dhamnod
				37	Private	Irrigated	0.100	Narayan S/o Champalal Caste Kulmi R/o Dhamnod
				43	Private	Irrigated	0.600	Ghisalal Champalal, Krishna chand Bhagwan S/o Onkaar, Caste Kulmi R/o Dhamnod
				47/1	Private	Irrigated	0.120	Dayanand S/o Mangilal and Basubai W/o Mangilal, Caste Kulmi R/o Gukljhara
				39	Private	Irrigated	1.600	Mangilal S/o Amichand, Caste Kulmi R/o Guljhara
				40	Private	Irrigated	0.240	Shobharam S/o Natthu Caste Kulmi, R/o Guljhara
				36	Private	Irrigated	0.400	Shantilal S/o Bhagwaan Caste kulmi, R/o Dhamnod
				29/1/1	Private	Irrigated	0.160	Sarvan S/o Chittar, Caste Bharud, R/o Guljhara
				104/23	Private	Irrigated	0.220	Hukumchand, Dayanand, Bhagwaan S/o Motilal, Jamunabai W/o Late Motilal Caste Kulmi, R/o Dhamnod

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				44	Government (Beed)	Parat	0.070	M. P. Government
				45	Government (Beed)	Parat	0.080	M. P. Government
				42/1 B	Government (Charnoi)	Parat	0.600	M. P. Government
				42/1/1 B	Government	Parat	1.000	M. P. Government Narmada Valley Development Authority, Bhopal (Ka. Ka.)
				42/1 C	Government	Parat	1.040	M. P. Government Narmada Valley Development Authority, Bhopal Ni. Charnoi
						Total	7.080	
			(6) Gujri	77	Private	Irrigated	0.800	Mitthulal S/o kanhaiyalal, Caste Mahajan, R/o Gram
				78	Private	Irrigated	0.160	Mitthulal S/o kanhaiyalal, Caste Mahajan, R/o Gram
				76	Private	Irrigated	0.360	Mitthulal S/o kanhaiyalal, Caste Mahajan, R/o Gram
				75	Private	Irrigated	0.280	Mitthulal S/o kanhaiyalal, Caste Mahajan, R/o Gram
				74/2	Private	Irrigated	0.240	Mitthulal S/o kanhaiyalal, Caste Mahajan, R/o Gram
				73	Private	Irrigated	0.025	Mitthulal S/o kanhaiyalal, Caste Mahajan, R/o Gram
				74/1	Private	Diverted Land	0.160	Manish S/o Rameshchandra Vagera, Caste - Mahajan, R/o Gram
				67/3	Private	Irrigated	1.000	Manish S/o Subhash Chandra Vagera, Caste Agrawal, R/o Dhamnod
				67/4	Private	Irrigated	0.160	Girdharilal S/o Kajorimal Vagera, Caste - Agrawal, R/o Dhamnod
				67/1	Private	Irrigated	0.800	Jagdish Chandra S/o Girdharilal Vagera, Caste - Agrawal, R/o Dhamnod
				50/6	Private	Irrigated	0.360	Ashadevi S/o Subhashchandra Vagera, Caste - Agrawal, R/o Dhamnod
				50/5/1	Private	Diverted Land	0.360	Gopal Krishna S/o Phool Chand Vagera, Caste - Jaiswal, R/o Gujri

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				50/4/1	Private	Diverted Land	0.360	Ashok kumar S/o Phool Chand Vagera , Caste - Jaiswal , R/o Gujri
				52/2	Private	Diverted Land	1.080	Manoramabai W/o Basantilal , Caste - Brahman, R/o gujri
				53/4	Private	Diverted Land	0.200	Rugnath S/o ponya Vagera, Caste-- Bhil , R/o Gujri
				53/3	Private	Non Irrigated	0.128	Phool Bai W/o Late Pandu Vagera , Caste - Bhil , R/o Gujri
				3/2	Private	Diverted Land	0.160	Gauri Shankar S/o Vishveshwar Dayal , Caste - Brahmin, R/o Gujri
				153/3	Private	Diverted Land	0.240	Gauri Shankar S/o Vishveshwar Dayal , Caste - Brahmin, R/o Gujri
				18	Private	Irrigated	0.841	Chabbu lal S/o Chagan Vagera, Caste - kalal, R/o Gujri
				17/3/2	Private	Diverted Land	0.070	Umrao S/o Balya , Caste - Bhil, R/o Gujri
				17/2	Private	Diverted Land	0.200	Basanti Bai S/o Kupariya Vagera, Caste - Bhil , R/o Gujri
				17/1	Private	Non Irrigated	0.240	Kalu S/o Jaggu Vagera, Caste - Bhil , R/o Gujri
				5	Private	Non Irrigated	0.160	Phool Bai W/o Late Pandu Vagera , Caste - Bhil , R/o Gujri
				6/1/1 Gh	Private	Irrigated	0.280	Kalu S/o Jaggu Vagera, Caste - Bhil , R/o Gujri
				6/1/1 Ga	Private	Diverted Land	0.480	Nanuram S/o Tersingh Vagera, Caste - Bhil, R/o Gujri
				6/1/1 Kha	Private	Diverted Land	0.360	Umrao S/o Balya , Caste - Bhil, R/o Gujri
				6/1/1 Ka	Private	Diverted Land	0.300	Basanti Bai S/o Kupariya Vagera, Caste - Bhil , R/o Gujri
				160/6/2	Private	Diverted Land	0.160	Basanti Bai S/o Kupariya Vagera, Caste - Bhil , R/o Gujri
				68	Government	Parat	0.100	M. P. Government (Rasta)
				155/50	Government	Parat	0.050	M. P. Government (Rasta)
				19	Government	Parat	0.120	M. P. Government (Rasta)
						Total	10.234	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				65/1/1, 65/1/2/1	Private	Irrigated	0.500	Rewaram S/o Narayan Mattha
				88	Private	Irrigated	0.720	Sakharam, Mangilal S/o Shiva Kulmi
				86	Private	Irrigated	0.640	Janki Bai W/o Late Babu, Mahadev, Jagdish Rameshwar, Kusumbai, Sumanbai, Suntiabai Laxmibai D/o Babu
				89/1	Private	Irrigated	0.330	Laxminarayan S/o Shankarlal Kulmi
				89/2	Private	Irrigated	0.420	Ghanshyam S/o Ganpat
				90	Private	Irrigated	0.820	Babulal S/o Sitaram Mattha
				85/3/2	Private	Diverted Land	0.600	Savitrabai S/o Manakbai W/o Kailashdas Babaji
				104	Private	Irrigated	1.075	Premlata Bai W/o Narendra
				105/2	Private	Irrigated	0.240	Kalyan S/o Chogalal
				105/1	Private	Irrigated	0.160	Prahlad Das S/o Laxman Das/ Kailash Dutt Laxman Das
				102/1	Private	Irrigated	1.505	Ganpati S/o Jainarayan
				103/1/2	Private	Irrigated	0.240	Jagannath S/o Nara Singh, Laxminarayan, Shantabai D/o Jagannath Vagera
				102/2	Private	Irrigated	0.250	Radhey Shyam S/o Jaynarayan
				98/1	Private	Irrigated	0.060	Hukum, Dayanand, Bhagwan S/o Motilal, Jamna W/o Late Motilal
				99	Private	Irrigated	2.120	Shri Ram S/o Shankar Sunar
				46/2	Government	Parat	0.200	Nahar (Government)
				66/1/1	Government	Parat	0.500	Government (Ni. Charnoi)
				15/2	Government	Parat	0.150	Nahar (Government)
				16/2	Government	Parat	0.020	Nahar (Government)
				14/2	Government	Parat	0.150	Nahar (Government)
				13/2	Government	Parat	0.020	Nahar (Government)
				118/1	Government Rasta	Parat	0.160	Government Rasta
						Total	16.301	
			(8) Khalbuzurg	32, 33/1	Private	Irrigated	0.220	Kasturi Bai Vagera D/o Diwakar
				32, 33/2	Private	Irrigated	0.220	Shri Ram S/o Keshavram
				32, 33/3	Private	Irrigated	0.220	Balkrishna S/o Keshavram
				14/1	Private	Diverted Land	0.170	Virendra Singh S/o Bharat Singh
						Irrigated	0.280	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				14/2	Private	Diverted Land	0.120	Kuldeep S/o Ramsingh
						Irrigated	0.290	
				16/1, 16/2, 16/3	Private	Diverted Land	0.020	Rajendra S/o Rameshchandra
						Irrigated	0.180	
				34	Private	Diverted Land	0.240	Jamnadas S/o Gopaldas (Possession of Indian Oil Corporation - Petrol Pump)
				35/1	Private	Diverted Land	0.200	Babulal S/o Amichand
				35/2	Private	Diverted Land	0.402	Hukumchand S/o Amichand
				48	Private	Diverted Land	0.360	Kamal Singh S/o Dhansingh
				49	Private	Non Irrigated	0.250	Govardhan S/o Banshidhar
				50/1/1	Private	Irrigated	0.220	Mahadev S/o Baliya
				50/2	Private	Irrigated	0.220	Janki Bai W/o Jagannath
				53/1	Private	Irrigated	0.140	Bhim Singh S/o Magilal
				39	Private	Diverted Land	0.320	Rameshchandra S/o Bhilaji
				53/3	Private	Diverted Land	0.150	Ramlal S/o Shobharam
				54	Private	Diverted Land	0.280	Mahadev S/o Babulal
				55/1/1	Private	Irrigated	0.200	Suresh S/o Rajaram Vagera
				55/1/2	Private	Diverted Land	0.004	Laxmichand S/o Mangilal
				55/1/3	Private	Irrigated	0.004	Anil S/o Balmukund
				55/1/4	Private	Diverted Land	0.004	Umesh S/o Rameshwar
				55/1/5	Private	Diverted Land	0.004	Harishchandra S/o Bانشi lal
				56/2/2/1	Private	Irrigated	0.004	Kanak Singh S/o Saheb Singh Vagera
				56/2/2/2	Private	Diverted Land	0.004	Tarachand S/o Gendalal
				59/1/1	Private	Irrigated	0.020	Umashankar S/o Kalu
				59/2	Private	Irrigated	0.060	Narsingh S/o Radhakrishna
				62/4/2/2	Private	Irrigated	0.030	Jyoti S/o Narsingh
				62/4/1	Private	Irrigated	0.040	Kshatriya Samaj
				79/1	Private	Irrigated	0.055	Ramlal S/o Ratanlal
					Private	Diverted Land	0.065	
				79, 80/1/1	Private	Diverted Land	0.100	Kiranbi W/o Omprakash
				84	Private	Irrigated	0.180	Suman W/o Ramesh
				85/1/2	Private	Diverted Land	0.050	Meena Bai W/o Heeralal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				85/1/1	Private	Irrigated	0.100	Dhanubai W/o Bharat Singh
				85/2	Private	Diverted Land	0.050	Subhadra Bai W/o Shriram
				86	Private	Irrigated	0.130	Sanjay Vagera Kailash
				87/1	Private	Irrigated	0.100	Kailash S/o Gangaram
				87/2	Private	Irrigated	0.100	Babulal S/o Amrichand
				88	Private	Irrigated	0.140	Nawal Singh S/o Kunwarji
				89/1	Private	Irrigated	0.034	Gulabchand S/o Bechar
					Private	Diverted Land	0.126	
				89/2	Private	Irrigated	0.160	Kailash S/o Bhilaji
				93	Private	Irrigated	0.180	Ramlal S/o Shobharam
				95	Private	Irrigated	0.240	Babulal S/o Natthu
				40/1	Private	Irrigated	0.250	Kailash S/o Bhilaji
				13	Government	Parat	0.063	M. P. Government (Aabadi)
				12	Government	Parat	0.160	M. P. Government (Nalla)
				71	Government	Parat	0.120	Ni. Charnoi Handed over to (P.H.E)
				78	Government	Parat	0.050	Ni. Charnoi Handed over to (P.H.E)
				72	Government	Parat	0.050	Handed over M.P. Government (P.H.E) (Nalla)
				83	Government	Parat	0.060	M. P. Government (Rasta)
						Total	7.439	
			(9) Khalkhurd	97/1/2	Private	Irrigated	0.010	Mohanlal - Shyamlal
				97/3	Private	Non Irrigated	0.013	Ashok S/o Deva.
				99/1/3	Private	Diverted Land	0.040	Ashabai - Hukumchand
				102/3	Private	Irrigated	0.030	Jagannath - Ambaram
				101/1	Private	Irrigated	0.160	Gajanand Ganpati Mangilal
				101/3	Private	Irrigated	0.010	Gajanand Ganpati Mangilal
				115/2	Private	Diverted Land	0.010	Narsingh - Radhakrishna
				114/3	Private	Diverted Land	0.040	Narsingh - Radhakrishna
				112/1/2 Ka	Private	Diverted Land	0.070	Narsingh - Radhakrishna
				112/1/2 Kha	Private	Diverted Land	0.010	Narsingh Prahlad - Radhakrishna
				112/1/4 Ka	Private	Diverted Land	0.003	Natthu - Chagan
				112/1/3/2/2	Private	Diverted Land	0.003	Abdul Rehman - Abdul Sattar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				112/1/3/2/1	Private	Diverted Land	0.005	Manish - Mohanlal
				112/1/3/2/4	Private	Diverted Land	0.002	Mohanlal - Madanlal
				112/1/3/2/1 4	Private	Diverted Land	0.002	Balu - Ranchod
				112/1/3/2/7	Private	Diverted Land	0.002	Kalu , Lalu - Garbad
				112/1/3/2/8	Private	Diverted Land	0.002	Gamar Harchand
				112/1/3/2/1 1	Private	Diverted Land	0.002	Deva - Ranchod
				112/1/3/2/1 3	Private	Diverted Land	0.002	Badiya - Jhapadiya
				112/1/3/2/1 0	Private	Diverted Land	0.002	Birbal - Hari
				112/1/3/2/1	Private	Diverted Land	0.002	Tukaram - Ramdas
				112/1/3/2/1 5	Private	Parat	0.002	Prabha - Gopal
				112/1/3/2/1 2	Private	Diverted Land	0.003	Sujit - Nambiyar
				112/3/1/4	Private	Parat	0.005	Mote Singh - Hare Singh
						Total	0.430	
			(10) Morgadi	1/2	Private	Irrigated	0.020	Triptibai W/o Madhusudan, Laxmi Bai W/o Shankarlal Caste Mahajan R/o Dhamnod
						Total	0.020	
			(11) Sirsodiya	48/3	Private	Parat	0.130	Shaitan Bai W/o Late Gangaram Vagera
				51	Private	Parat	0.010	Tarabai W/o Late Sitaram Vagera
				47	Government	Parat	0.130	M. P. Government (Ni. Char.)
				49	Government	Nalla	0.090	M. P. Government (Nalla)
				54	Private	Irrigated	0.170	Ijram S/o Sitaram Bharat Vagera, Tarabai W/o Late Sitaram
				64/1	Private	Irrigated	0.170	Geeta Bai W/o Late Toliya, Mukesh, Buddhu S/o Prakash Vagera
				64/3	Private	Irrigated	0.110	Geeta Bai W/o Late Toliya, Mukesh, Buddhu S/o Prakash Vagera
				64/2	Private	Irrigated	0.140	Somati Bai W/o Kanaji Caste Bhil
				65	Private	Parat	0.291	Girwar S/o Khuman Caste Bhilala R/o Chiktiyawad Bhu - Swami

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				66/1	Private	Non Irrigated	0.160	Mukhtiyar S/o Masid Khan Caste Musalman Vagera R/o Dehariya
				67/1	Private	Non Irrigated	0.340	Gaffar Khan Chote Khan Mukhtiyar Khan S/o Sattar Khan Vagera
				67/2, 68	Private	Non Irrigated	0.570	Mukhtiyar S/o Basir Khan
				69/2	Private	Irrigated	0.360	Sitaram S/o Ranjeet
				69/1	Private	Non Irrigated	0.590	Natthu S/o Ranjeey Vagera
				92/3	Private	Irrigated	0.850	Sitaram S/o Ranjeet
				119/1	Government	Parat	0.110	M. P. Government (Nistar Charnoi)
				119/3	Private	Non Irrigated	0.400	Kasturi bai W/o Faatiya
				117	Government	Parat	0.080	Government Land (Na. Ka. Cha.)
				118/3	Private	Non Irrigated	0.030	Gangabai W/o Late Natthu Vagera
				111/1/3	Private	Parat	0.038	Shukhlal S/o Mangtiya
				111/1/4	Private	Parat	0.025	Shukhlal S/o Mangtiya
				111/1/1/1	Private	Parat	0.562	Shukhlal S/o Mangtiya
				111/1/1/3	Private	Parat	0.007	Bharat S/o Gappu
				111/2/1	Private	Parat	0.032	Nanku S/o Onkar Vagera
				111/2/2	Private	Parat	0.379	Shambhu S/o Nankya
				111/2/3	Private	Parat	0.411	Nanku S/o Onkar Vagera
				110	Government	Parat	2.010	M. P. Government (Ni. Char.)
				111/1/1/2	Private	Parat	0.014	Shambhulal S/o Poonamchand
				107	Private	Non Irrigated	0.260	Changulbai W/o Late Bandu Vagera - Katya S/o Samotyia Vagera
				109	Private	Non Irrigated	0.190	Changulbai W/o Late Bandu Vagera - Katya S/o Samotyia Vagera
				108	Government	Parat	0.030	M. P. Government (Nistar Charnoi)
				106/3	Private	Parat	0.250	Hare Singh S/o Manohar Singh
				98/2	Private	Parat	0.050	Hare Singh S/o Manohar Singh
				90	Private	Irrigated	0.270	Giopi Bai W/o Babu Vagera
				297	Private	Irrigated	0.550	Khadak Singh S/o Antar Singh Vagera
				111/1/2	Private	Diverted Land	0.126	Ajay S/o Anirudh
						Total	9.935	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(12) Dhamnod	202	Private	Irrigated	0.015	Inder Singh S/o Dhansingh Rajput Dhamnod
				203	Private	Irrigated	0.101	Narayan Prabhu S/o Murar Laadki Bai W/o Late Murar Kulmi Dhamnod
				204	Private	Irrigated	0.650	Narayan Prabhu S/o Murar Laadki Bai W/o Late Murar Kulmi Dhamnod
				205	Private	Irrigated	0.446	Parasram, Sukhdev, Kailash, Hariram S/o Dayaram and Tarabai W/o Late Dayaram Kulmi R/o Dhamnod
				206	Private	Irrigated	0.250	Ranchod, Darkya, Kanhiya S/o Vishram Caste Kulmi R/o Dhamnod
				219/1	Private	Irrigated	0.081	Ganpat S/o Dagdiya Caste Kulmi R/o Dhamnod
				219/2	Private	Irrigated	0.285	Kailash S/o Natthu Caste Kulmi R/o Bikhron
				220	Private	Irrigated	0.510	Babulal S/o Shankar Kulmi R/o Bikhron
				221/3	Private	Irrigated	0.105	Vinita W/o Prashant Khandelwal R/o Manawar
				221/1	Private	Irrigated	1.890	Rekha W/o Chandraprakash, Vinita W/o Prashant R/o Manawar and Shivani W/o Pawan Kumar Khandelwal R/o Indore Radha W/o Rameshwar Maheshwari R/o Dahi and Manju W/o Sureshchandra Maheshwari R/o Susari
				221/2	Private	Irrigated	0.092	Jaynarayan, Rameshwar, Rangopal, Girdharilal, Radheyshyam, Gordhandas S/o Laxminarayan, Harinarayan, Omprakash S/o Poonamchand Caste Mahajan R/o Dhamnod
				207	Private	Irrigated	0.091	Inder Singh S/o Dhansingh Rajput Dhamnod
				222	Government	Parat	0.044	Nazul Government
						Total	4.560	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(13) Lodhipura	2/1	Private	Irrigated	0.090	Gangaram S/o Bavariya , Caste Bhil Bhondal
				2/2	Private	Irrigated	0.070	Udiya S/o Bavariya , Caste Bhil Bhondal
				2/3/1	Private	Non Irrigated	0.020	Lalitabai W/o Jagdish Caste Bhil
				2/3/2	Private	Non Irrigated	0.020	Babitabai W/o Kailash Caste Bhilala
				2/4	Private	Non Irrigated	0.020	Ramesh S/o Jaam Singh, Caste Bhil R/o Village Bhondal
				2/5	Private	Non Irrigated	0.020	Poonamchand S/o Jaam Singh Caste Bhil R/o Village Bhondal
				2/6	Private	Non Irrigated	0.030	Laxman S/o Jaam Singh Caste Bhil , Bhondal
				39/1/1	Private	Diverted Land	0.140	Tar Singh S/o Nahar Singh Caste Bhil R/o Gram / Possesion of Balwant Singh S/o Gurunam Singh
				39/2	Private	Irrigated	0.105	Kamalya S/o Chittar , Caste Bhil R/o Gram
				43/3/1	Private	Irrigated	0.040	Kailash S/o Narsingh Caste Bhil
				39/3	Private	Irrigated	0.090	Mehta Bai, Thavari Bai, Gajra Bai, Savaji Bai D/o Dhulya, Jhumkabai W/o Late Dhulya, Heeralal S/o Ramsingh Kotabai, Amri Bai, Manga Bai, Sukki Bai, Kelabai D/o Ramsingh, Chandabai W/o Late Ramsingh, Devisingh Sukram S/o Nathu, Caste Bhil Sa. Deh.
				41/1/1	Private	Non Irrigated	0.088	Chiya Bai W/o Kanhaiyya, Caste Bhil
				41/1/3	Private	Non Irrigated	0.060	Chiya Bai W/o Kanhaiyya, Caste Bhil
				41/1/2	Private	Non Irrigated	0.120	Devisingh S/o Mohan Singh Caste Bhil
				43/1/2/1	Private	Parat	0.007	Mukesh S/o Mangal Singh Caste Bhil
				43/1/2/2	Private	Irrigated	0.100	Kailash S/o Narsingh Caste Bhil
				43/2/1	Private	Irrigated	0.075	Kailash S/o Narsingh Caste Bhil
				41/2/1	Private	Non Irrigated	0.020	Kalu S/o Kakadiya, Caste Bhil Sa. Deh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				44	Private	Irrigated	0.200	Mangilal S/o Sukya, Dhapabai W/o Late Sukya Bondar, Malu Balya, S/o Kakadiya Bhil Sa. Deh.
				47	Private	Irrigated	0.140	Mangilal S/o Sukya, Dhapabai W/o Late Sukya Caste Bhil Sa. Deh.
				48	Private	Irrigated	0.150	Chiya Bai W/o Kanhaiyya, Caste Bhil Sa. Deh./ Possession of Gopal, Dilip S/o Dhansingh Bhilala R/o Dhani
				50	Private	Irrigated	0.110	Mohan, Ramesh, Kailash, Pratapsingh, Rajaram, Onkaar, Bhimsingh and Kamlibai S/o & D/o Rupal, Gajribai W/o Late Rupal Caste Bhil R/o Gram Bhuswami
				52	Private	Irrigated	0.110	Dayaram, Babulal, Rupabai S/o & D/o Jhamariya, Rangabai W/o Late Jhamariya, Shankar, Pooja D/o Somla, Nakulbai, Punji Bai Annubai D/o Dublya, Gujarbai W/o Late Dublya Shravan, Chunnilal S/o Heeralal, Rukmabai D/o Heeralal, Kalabai W/o Late Heeralal Caste Bhil Sa. Deh./ Possession of Mohan, Ramesh, Kailash, Pratapsingh, Rajaram, Onkaar, Bhimsingh Syal Vagera Caste Bhil R/o Gram
				53	Private	Irrigated	0.134	Kusum Bai W/o Chotu Singh, Caste Bhilala Sa. Chiktiyawad
						Diverted Land	0.046	
				55	Private	Diverted Rakba	0.220	Maheshwari Trust Dhamnod, President Rangnath S/o Mannalal Nyati, R/o Dhamnod
				58	Private	Non Irrigated	0.360	Khadak Singh S/o Hare Singh, Caste Bhilala, Khalkhurd
				190/1	Private	Non Irrigated	0.370	Omprakash S/o Prabhudayal, Caste Mahajan, Dhamnod

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				194/1, 194/2	Private	Irrigated	0.240	Jaswant Singh, Surendra Singh S/o Gurubaksh Singh Caste Sikh R/o Dhamnood
				202	Private	Irrigated	0.120	Kanhaiyyalal S/o Ganpat, Caste Kulmi, Guljhara
				206/1	Private	Irrigated	0.010	Mohan, Nikhil, Dinesh S/o Singdar, Manginbai W/o Late Singdar Caste Balai Guljhara
				193/1	Private	Irrigated	0.304	Ramchandra, Mohanlal, Kailash Chandra, Suresh Chandra, Gopalkrishna S/o Ramniwas, Sarju Bai W/o Late Ramniwas, Maheshchandra, Jyoti, Seema, kavita D/o Ramchandra, Kantabai W/o Late Ramchandra, Prakashchandra, Shailendra Kumar, Pankaj Kumar, Madhubala, Punita, D/o Mohanlal, Geetabai W/o Late Mohanlal Mahajan, Guljhara
						Diverted Land	0.066	
				193/2	Private	Irrigated	0.165	Sarju Bai W/o Late Ramniwas Caste Mahajan, Guljhara
						Diverted Land	0.105	
				40	Government	Parat	0.070	M. P. Government
				57	Government	Parat	0.050	M. P. Government
						Total	4.085	
		(14) Bhandiyal		103/2	Private	Irrigated	0.080	Maharshi Swami Raghwanandji Guru Shivlanand Ji Caste Brahman R/o Gram Bhuswami
				102/1	Private	Irrigated	0.050	Pratap Singh S/o Dariyav Singh, Caste Bhilala R/o Gram Bhuswami
				102/2	Private	Irrigated	0.050	
				102/3	Private	Parat	0.060	Chagan S/o Kekadiya Caste Bhil, R/o Sanjay Nagar, Dhamnood
				99/2, 100/1	Private	Irrigated	0.060	Sukhram S/o Navsa, Caste Bhil R/o Gram Bhuswami
				100/2	Private	Parat	0.040	Ratan S/o Udiya, Caste Bhil R/o Gram Bhuswami
				98/1/2	Private	Irrigated	0.040	Sukhram S/o Navsa, Caste Bhil R/o Gram Bhuswami

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				98/2	Private	Parat	0.050	Rugna S/o Jamliya , Caste Bhil, R/o Gram Bhuswami
				97	Private	Parat	0.060	Dariyav Mangilal S/o Kola, Caste Bhil R/o Gram Bhuswami
				94/3	Private	Irrigated	0.120	Pandya Poona S/o Shobhan Vagera, Caste Bhil R/o Gram Bhuswami
				95/1	Private	Parat	0.020	Kalu S/o Inder Singh Caste Bhil R/o Gram Bhuswami
				21	Private	Irrigated	0.040	Mandeep Singh, Gurdeep Singh S/o Satnam Singh Caste Sikh, R/o Dhamnod
				24	Private	Irrigated	0.230	Mandeep Singh, Gurdeep Singh S/o Satnam Singh Caste Sikh, R/o Dhamnod
				25	Private	Irrigated	0.100	Mandeep Singh, Gurdeep Singh S/o Satnam Singh Caste Sikh, R/o Dhamnod
				27	Private	Irrigated	0.020	Mandeep Singh, Gurdeep Singh S/o Satnam Singh Caste Sikh, R/o Dhamnod
				20/2	Private	Irrigated	0.010	Velajya S/o Chajmal Caste Bhil R/o Gram Bhuswami
				18/1	Private	Irrigated	0.365	Manohar S/o Nanuram Kewat R/o Dhamnod Bhuswami
				18/2	Private	Irrigated		Manohar S/o Nanuram Kewat R/o Dhamnod Bhuswami
				14/2/3/2, 15/2/3/2, 14/2/3/1, 15/2/3/1	Private	Irrigated	0.063	Sanjori Bai & Buravi Bai D/o Deva and Deva S/o Banwariya, Caste Bhil R/o Gram Bhuswami, Dagadiya Dattak Deva and Deva S/o Bavariya Caste Bhil R/o Gram Bhuswami
				14/3,15/3	Private	Irrigated	0.070	Velajya S/o Chajmal Caste Bhil R/o Gram Bhuswami
				14/1, 15/1	Private	Irrigated	0.060	Velajya S/o Chajmal Caste Bhil R/o Gram Bhuswami

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				103/1	Government	Parat	0.100	M. P. Government (Government Land)
				28	Government	Parat	0.020	M. P. Government (Government Land)
				20	Government	Parat	0.379	M. P. Government (Government Land)
				16	Government	Parat	0.506	M. P. Government (Government Land)
				17	Government	Parat	0.150	M. P. Government (Government Land)
				19	Government	Parat	0.060	M. P. Government (Government Land)
				96	Government	Parat	0.125	M. P. Government (Government Land)
				46/1	Government	Parat	0.060	M. P. Government (Government Land)
				105	Government	Parat	0.821	M. P. Government (Government Land)
				23	Government	Parat	0.060	M. P. Government (Government Land)
				22	Government	Parat	0.101	M. P. Government (Government Land)
				20/1	Government	Parat	0.050	M. P. Government (Government Land)
						Total	4.020	
			(15) Bikhron	216	Private	Irrigated	0.740	Surendra S/o Budi Chand
				217	Private	Irrigated	0.128	Surendra S/o Budi Chand
				215	Private	Irrigated	0.114	Bhagwan Das S/o Laxman Das
				214	Private	Irrigated	0.400	Bhagwan Das S/o Laxman Das
				213	Private	Irrigated	0.900	Bhagwan Das S/o Laxman Das
				235	Private	Irrigated	0.010	Ramesh, Jagdish, Mahdev, Atmaram, Krishnachand S/o Shankarlal
				236	Private	Irrigated	0.025	Ramesh, Jagdish, Mahdev, Atmaram, Krishnachand S/o Shankarlal
				199	Private	Irrigated	0.080	Kanhaiya S/o Poonamchand
				257/2	Private	Irrigated	0.557	Gulabbai W/o Jagannath, Parmanand, Dayanand, S/o Jagannath Kulmi
				212	Private	Irrigated	0.708	Lalitdas S/o Prahlad Das
				257/1	Private	Irrigated	0.556	Dhannala S/o Ghisya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				263	Private	Irrigated	0.015	Ranchod S/o Bhila, Mansharam, Asharam S/o Shobharam, Jankibai, Kalabai, Neelabai, Bhagwati Bai W/o Shobharam, Karki W/o Shobharam
				262	Private	Irrigated	0.100	Ranchod S/o Bhila, Mansharam, Asharam S/o Shobharam, Jankibai, Kalabai, Neelabai, Bhagwati Bai W/o Shobharam, Karki W/o Shobharam
				259	Private	Irrigated	0.658	Gulabbai W/o Jagannath, Parmanand, Dayanand, S/o Jagannath Kulmi
				258	Private	Irrigated	0.532	Santosh, Suresh, Devendra S/o Narottam Karki W/o Late Narottam
				260	Private	Irrigated	0.101	Gulabbai W/o Jagannath, Parmanand, Dayanand, S/o Jagannath Kulmi
				261	Private	Irrigated	0.060	Ranchod S/o Bhila, Mansharam, Asharam S/o Shobharam, Jankibai, Kalabai, Neelabai, Bhagwati Bai W/o Shobharam, Karki W/o Shobharam
				319	Private	Irrigated	0.260	Dwarkya S/o Devchand
				320	Private	Irrigated	0.202	Ghanshyam S/o Balchand
				321	Private	Irrigated	0.228	Ghanshyam S/o Balchand
				324	Private	Irrigated	0.300	Ghanshyam S/o Balchand
				318	Private	Irrigated	0.240	Dwarkya S/o Devchand
				316	Private	Diverted Land	0.250	Sushilabai W/o Late Bhagwan, Gajanand, Shiv Shankar, Narayan S/o Bhagwan, Kanhaiya, Subhash S/o Motilal, Tulsibai W/o Late Motilal Jagdish S/o Babu Kulmi
				315/1	Private	Diverted Land	0.500	Sushilabai W/o Late Bhagwan, Gajanand, Shiv Shankar, Narayan S/o Bhagwan, Kanhaiya, Subhash S/o Motilal, Tulsibai W/o Late Motilal Jagdish S/o Babu Kulmi
				325/1/1	Private	Irrigated	0.234	Mukund S/o Jhapadiya
				325/1/2	Private	Irrigated	0.133	Tantiya S/o Jhapadiya

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				327	Private	Irrigated	0.290	Motilal, Jagdish S/o Jogilal
				326/1	Private	Irrigated	0.160	Motilal, Jagdish S/o Jogilal
				348	Private	Irrigated	0.051	Ladkibai W/o Natthu, Kashiram, Mahesh S/o Natthu
				344/2	Private	Irrigated	0.360	Ladkibai W/o Natthu, Kashiram, Mahesh S/o Natthu
				346	Private	Irrigated	0.060	Ladkibai W/o Natthu, Kashiram, Mahesh S/o Natthu
				347/3/2	Private	Irrigated	0.080	Mahadev, Rajubai, Nabi Bai D/o Punya, Dinesh S/o Sitaram, Ramibai W/o Ghisya
				347/2	Private	Irrigated	0.070	Dayaram S/o Budiya
				347/1	Private	Irrigated	0.060	Keshav, Onkar S/o Motilal
				347/3/1	Private	Irrigated	0.050	Parmanad S/o Vishram
				343/1	Private	Irrigated	0.424	Keshav, Onkar, Kusumbai D/o Motilal Sevanti W/o Late Motilal
				343/2	Private	Irrigated	0.300	Kalibai W/o Sukhlal
				549/343/1	Private	Irrigated	0.234	Sitabai W/o Balu Mattha
				549/343/4	Private	Irrigated	0.234	Latabai W/o Balu Mattha
				344/1	Private	Irrigated	0.050	Radheyshyam S/o Dhannalal
				439/3	Private	Irrigated	0.720	Dayanand, Parmanand S/o Naran, Dhannubai W/o Naran
				439/1/1	Private	Irrigated	0.150	Nanuram S/o Ramchandra
				428/1	Rasta	Rasta	0.015	Rasta
				439/2	Nahar	Nahar	0.080	Government (Nahar)
				544/427/3	Private	Irrigated	0.040	Natthu, Krishnachand S/o Sitaram Tilok, Ashabai D/o Fattu, Parubai W/o Late Fattu
				544/427/2	Nahar	Nahar	0.063	Nahar
				440/3	Private	Irrigated	0.240	Laxman S/o Mogya
				441/3/1/1	Private	Irrigated	0.320	Angoor, Gajanand S/o Kalyan
				441/3/1/3	Private	Irrigated	0.350	Kalyan S/o Mangtya, Dwarki W/o Late Shobharam, Sachin, Kamlesh S/o Shobharam

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				432	Private	Irrigated	0.020	Narayan, Bhagwan, Pappu, Shantabai, Ramubai, Bharlal Bai, Gendabai, Laxmi Bai, Sitabai, D/o Santha Bhasad
				434	Private	Irrigated	0.180	Gangabai W/o Ghanshyam
				435	Private	Irrigated	0.080	Shardabai W/o Rajendra
				436	Private	Irrigated	0.080	Pravin S/o Brijlal, Santosh, Jitendra S/o Rameshwar
				437	Private	Irrigated	0.840	Ajudhyabai W/o Motilal, Radheyshyam, Ganpati, Ganesh S/o Motilal Kulmi
				506	Private	Irrigated	0.120	Dwarka Bai W/o Chunnilal
				508	Private	Irrigated	0.160	Shymlal, Kalyan S/o Chunnilal
				509	Private	Irrigated	0.760	Kasturibai W/o Khusyal, Ashok, Rajendra S/o Sushyal
				510	Private	Irrigated	0.320	Kamlesh S/o Hukum
				511/3	Private	Irrigated	0.400	Maresh S/o Poonamchand
				507	Private	Irrigated	0.200	Shymlal, Kalyan S/o Chunnilal
				438	Rasta	Parat	0.100	Rasta
				250/1	Rasta	Parat	0.040	Rasta (Government)
				345	Private	Irrigated	0.202	Kadvibai W/o Late Balu, Gulabbai, Geetabai, Sitabai, Latabai D/o Balu, Rajaram S/o Shankar, Puniya S/o Gappu, Keshav, Onkar, Kusumbai D/o Motilal, Sevanti Bai W/o Late Motilal, Radhey Shyam, Govind, Pappu S/o Dhannalal, Prembai, Laxmi Bai D/o Dhannalal, Ramibai W/o Late Ghisya, Dinesh S/o Sitaram, Sarjubai W/o Late Sitaram, Mangya S/o Sewaram, Natthu S/o Champalal, Bandu S/o Radhu Mattha
						Total	15.934	

[F. No. NHAI/BOT/11013/13/2005/LA/182/Dharmपुरी]

PRABHAKAR, Dy. Secy.